

संदर्भ Ref.:नि.से.वि.ISD/117/2024-25

दिनांक Date : 16th July, 2024

बीएसई लिमिटेड BSE Ltd.	नेशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड
बीएसई लिस्टिंग सेंटर BSE Listing Centre	National Stock Exchange of India Ltd.
स्क्रिप कोड Scrip Code - 532 477	निप्स NEAPS
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	स्क्रिप कोड Scrip Symbol-UNIONBANK-EQ
	सिक्योरिटी Security - UBI-AT/BB

महोदया Madam/महोदय Sir,

Subject: Submission of Newspaper Advertisement - Election of Two Shareholder Directors.

This is to inform that in compliance with Regulation 47(1)(d) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, we hereby submit copies of the newspaper advertisement of valid nominations for election of Two Shareholder Directors after scrutiny of nominations and determination of their Fit and Proper status by the Nomination and Remuneration Committee of the Board in following newspapers:

	Pa	rticula	irs	N	lewspap	er	Language	Editions	Date of Publication
Election	of	Two	Shareholder	Busin	ess Stan	dard	English	All	16.07.2024
Directors				Business Standard			Hindi	All	16.07.2024
				The	Free	Press	English	All	16.07.2024
				Journ	al				
				Navsh	nakti		Marathi	Mumbai	16.07.2024

The same is also made available on the website of the Bank www.unionbankofindia.co.in

Thanking you.

भवदीय Yours faithfully,

(सीएस एस. के. दाश CS S. K. Dash) कंपनी संचिव Company Secretary एफ़सीएस FCS - 4085

Encl: As above

Classification: Public

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, निवेशक सेवायें प्रभाग, यूनियन बैंक भवन, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई- 400021. Union Bank of India, Investor Services Division, Union Bank Bhavan, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai - 400021. 2: + 91 22 2289 6636/2289 6643, Sinvestorservices@unionbankofindia.bank, website: www.unionbankofindia.co.in













आयडीएफसी फर्स्ट बँक लिमिटेड

IDFC FIRST Bank (पूर्वी कॅपिटल फर्स्ट लिमिटेड एकत्रित सह आयडीएफसी बँक लिमिटेड आणि `ू आता आयडीएफसी फर्स्ट बँक लिमिटेड नावे ज्ञात)। सीआयएन: एल६५११०टीएन२०१४पीएलसी०९७७९: **नोंदणीकृत कार्यालय :** केआरएम टॉवर्स, ८वा मजला, हॅरिंग्टन रोड, चेतपेत, चेन्नई-६०००३१.

द्. : +९१ ४४ ४५६४ ४००० । फॅक्स : +९१ ४४ ४५६४ ४०२२ सिक्युरिटायझेशन अँड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शियल ॲसेट्स अँड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट ॲक्ट, २००२ च्या कलम १३(२) अंतर्गत सूचना

खालील कर्जदार आणि सह-कर्जदार यांनी **आयडीएफसी फर्स्ट बँक लिमिटेड (पूर्वी कॅपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आयडीएफसी बँक लिमिटेड सह एकत्रित आणि आता आयडीएफसी फर्स्ट बँक लिमिटेड अशी ज्ञात**) कडून खालील नमूद तारण कर्जे प्राप्त केली. खालील नमूद कर्जदार आणि सह–कर्जदार यांची कर्जे ही त्यांच्या संबंधित मिळकतींच्या गहाणाद्वारे तारण केली आहेत. ते संबंधित कर्ज करार यांच्य अटी आणि शर्ती यांचे पालन करण्यात कसूरवार ठरले आणि अनियमित बनले, त्यांची कर्जे ही आरबीआयच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार एनपी म्हणन वर्गीकत करण्यात आली. आयडीएफसी फर्स्ट बँक लिमिटेड (पर्वी कॅपिटल फर्स्ट लिमिटेड. आयडीएफसी बँक लिमिटेड सह **एकत्रित आणि आता आयडीएफसी फर्स्ट बँक लिमिटेड अशी ज्ञात)** ला त्यांच्याद्वारे देय थकबाकी रक्कम ही खालील कोष्टकात अधिक विशेषत: जारी केलेल्या संबंधित सूचनेत नमूद केलेली आहे आणि सदर रकमेवरील पुढील व्याज सुद्धा लागू आहे आणि ते त्यांच्या संबंधित तारखेपासून परिणामांसह सांपार्श्विक दराने प्रभारित असेल.

	٠	-			
अ.	कर्ज खाते क्र.	कर्जाचा प्रकार	कर्जदार आणि	कलम १३(२) सूचनेची	कलम १३(२) सूचनेनुसार
क्र.			सह-कर्जदाराचे नाव	तारीख	थकीत रक्कम
٤.	६२६९८५३८	गृह कर्ज	१. स्टॅलिन जोसेफ फर्नांडिस	०६.०७.२०२४	भारू.
	आणि		२. नबिशा ग्लोरी स्टॅलिन		४८,१३,३०४.९३/-
	६२६९८०६७				

मिळकतीचा पत्ता: उप-नोंदणीकृत जिल्हा कल्याण आणि नोंदणीकृत जिल्हा ठाणे, महाराष्ट्र ४२१३०६ मधील आणि गाव काटेमानिवली, तालुका: कल्याण, जिल्हा: ठाणे च्या सर्व्हे क्र. ४०, हिस्सा क्र. ४ येथे वसलेल्या काटेमानिवली येथे स्थित रामेश्वरम अशा ज्ञात बिट्डिंगमधील चौथ्या मजल्यावरील फ्लॅट क्र. बी-४०१, मोजमापित ९०० चौ.फूट (बिल्टअप क्षेत्र) चे सर्व ते भाग आणि विभाग आणि खालील प्रमाणे सिमाबद्ध:- पूर्व: रामानुंज अपार्टमेंट, पश्चिम: श्री. बलराम शंकर पावशे आणि अन्य यांची मिळकत, उत्तर: श्री. तखाराम पावशे यांची मिळकत, दक्षिण: लव-कुश अपार्टमेंट.

तुम्हाला याद्वारे सदर प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसांत इतर दर, आकार इ. आणि त्यांच्या संबंधित तारखेपासूनचे त्यावरील व्याजाच्य -सांपार्श्विक दरासह वरील कोष्टकात तपशिलवार दर्शविल्यानुसार **आयडीएफसी फर्स्ट बँक लिमिटेड (पूर्वी कॅपिटल फर्स्ट लिमिटेड**, आयडीएफसी बँक लिमिटेड सह एकत्रित आणि आता आयडीएफसी फर्स्ट बँक लिमिटेड अशी जात) ला थकीत रक्षम देय करण्यासार्ठ बोलाविले आहे, कसूर केल्यास निम्नस्वाक्षरीकार **आयडीएफसी फर्स्ट बँक लिमिटेड (पूर्वी कॅपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आयडीएफसी बँक** लिमिटेड सह एकत्रित आणि आता आयडीएफसी फर्स्ट बँक लिमिटेड अशी ज्ञात) च्या थकीत रकमेच्या वसुलीसाठी वरील नमूद गहाण मिळकर्तींच्या विरोधात सरफैसी ॲक्टच्या कलम १३(४) आणि कलम १४ अन्वये कारवाई करण्यासाठी प्रतिबंधित असेल. पुढे तुम्हांला सदर तारण मत्तेची विक्री/भाडेपट्टा किंवा अन्यद्वारे हस्तांतरणासाठी सदर ॲक्टच्या कलम १३(१३) अन्वये मज्जाव असेल.

> (पर्वी कॅपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आयडीएफसी बँक लिमिटेड सह एकत्रित आणि आता आयडीएफसी फर्स्ट बँक लिमिटेड अशी ज्ञात)

प्राधिकृत अधिकारी आयडीएफसी फर्स्ट बँक लिमिटेड पंजाब नैघनल बैंक punjab national bank

सर्कल सस्त्रा ठाणे: पीएनबी प्रगती टॉवर, ३रा मजला, सी-९, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-४०००५१, द्र-०२२-२६५३२७५६, २६५३२७९४ **ईमेल:** cs8325@pnb.co.in

कब्जा सूचना (स्थावर मिळकती करीता) संबंधित प्राधिकृत अधिकाऱ्यांद्वारे एक पेक्षा अधिक कर्जदारांच्या बाबींमध्ये स्थावर मिळकतींकरीता सामान्य कब्जा सूचना.

(सुधारित एसएल-१० बी) त्याअधीं, पंजाब नॅशनल बैंक/पंजाब नॅशनल बैंकचे प्राधिकृत अधिकारी यांनी सिक्युरिटायझेशन ॲण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शियल ॲसेटस् ॲण्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट ॲक्ट, २००२ अन्वये आणि सिक्यरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्सेमेंट) रूल्स २००२ च्या कलम् १३ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून सदरह सचनेच्या तारखेपासन/सचना प्राप्त झाल्याच्य तारखेपासून ६० दिवसांत प्रत्येक खात्यासमोर नमूद रक्कम अदा करण्यासाठी संबंधित कर्जदारांना बोलाविण्यासाठी प्रत्येक खात्यासमोर नमूद तारखेची मागणी सूचना जारी करण्यात आली होती. सदरहु कर्जदारांनी रक्कम अदा करण्यास कसूर केलेली आहे म्हणून कर्जदार आणि सर्वसामान्य जनतेला सूचना याद्वारे देण्यात येते की, निम्नस्वाक्षरीकारांनी सिक्युरिटी इंटरेस्ट एन्फोर्समेंट) रूल्स २००२ च्या नियम ८ सहवाचता सदरह् अधिनियमाच्या कलम १३ च्या उप–कलम (४) अन्वये त्यांना प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथील खालील वर्णिलेल्या मिळकतीचा कब्जा पत्येक खात्यासमोगील नमट ताग्येगोजीस घेतलेला आहे.

विशेषतः कर्जदार आणि सर्वसामान्य जनतेस याद्वारे सुचना देण्यात येते की, सदर मिळकत/तींशी कोणताही व्यवहार करू नये आणि सदर मिळकत/तींशी केलेला कोणताही व्यवहार हा पंजाब नॅशनल बँकेच्या रक्कम आणि त्यावरील व्याजाच्या भाराअधीन राहील

अ.	कर्जदार/गहाणदार/ हमीदार	गहाण मिळकतीचे वर्णन	कब्जाची	मागणी	कब्जा सूचना	मागणी सूचनेच्या	प्राधिकृत
क्र.	(मिळकतीचे मालक) यांचे नाव		स्थिती	सूचनेची	चिटकवल्याची	तारखेरोजीस	अधिकाऱ्यांचे
			सांकेतिक/	तारीख	तारीख	थकबाकी	नाव
			प्रत्यक्ष			रक्कम (रु.)	
१	श्री. इलियास गौस सय्यद (कर्जदार)	रूम क्र. ३२२, बिल्डिंग क्र. १९, बी-विंग,	प्रत्यक्ष	०७/०९/२०१९	१०/०७/२०२४	१६२७८७५.००	श्री. अमृत
	सौ. शमा इलियास सय्यद (सह-	३रा मजला, साईनाथ को-ऑप. हौसिंग				अधिक त्यावरील	पाल सिंग
	कर्जदार)	सोसा. लि., लल्लभाई कंपाऊंड, जिजामाता				व्याज आणि प्रभार	
		रोड, मानखुर्द, कुर्ला, मुंबई ४०००४३.					
2	कै. श्री. कमल घेवरचंद जैन (कर्जदार)	फ्लॅट क्र. २१०, बी विंग, २रा मजला, पंच	प्रत्यक्ष	२१/११/२०२२	१२/०७/२०२४	२०८६५१७.८६	श्री. अमृत
	सौ. कुसुम कमल जैन (सह-कर्जदार)	रत्न को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., प्लॉट				अधिक त्यावरील	पाल सिंग
	क्. प्रिती चौहान (हमीदार)	क्र. ४१५/४१६, सेक्शन २-बी, नेताजी चौक				व्याज आणि प्रभार	
	श्री. सचिन के. जैन (हमीदार)	जवळ, उल्हासनगर-५ - ४२१००५.					
	श्री. राजेश कोरुमल आचरा (हमीदार)	, .					
3	श्री. संदीप आनंदा काळे (कर्जदार)	फ्लॅट क्र. सी-२०१, २रा मजला, इंद्र धाम	सांकेतिक	03/08/2028	११/०७/२०२४	२७०१५१३.९७	श्री. अमृत
	सौ. आशा संदीप काळे (सह-	को-ऑप. हौ. सो., प्लॉट क्र. ६७, सेक्टर				अधिक त्यावरील	पाल सिंग
	कर्जदार)	६ए, मौजा कामोठे, नवी मुंबई-४१०२२१.				व्याज आणि प्रभार	
Х	श्री. कुणाल राजेंद्र भिसे (कर्जदार)	फ्लॅट क्र. २०४, २रा मजला, मधुबन को-	सांकेतिक	२६/०२/२०२४	१२/०७/२०२४	१७२८०९८.४०	श्री. अमृत
	श्री. राजेंद्र श्यामराव भिसे (हमीदार)	ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., गोकळ नगर				अधिक त्यावरील	पाल सिंग
		बायपास रोड, चेंधरे गाव, तालुका अलिबाग,				व्याज आणि प्रभार	
		जि. रायगड ४०२२०१.					

तारण मत्तेच्या भरण्याकरिता उपलब्ध वेळेच्या संदर्भात ॲक्टच्या कलम १३ च्या पोट कलम (८) च्या तरतुर्दीकडे कर्जदार/हमीदार/गहाणदारांचे लक्ष वेधून घेतले जात आहे ठिकाण: मुंबई प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नॅशनल बँक

जोडपत्र-१५

बॉम्बे मर्कंटाईल को-ऑपरेटिव्ह बँक लि. (स्थापना: १९३९ (मल्टी स्टेट शेड्युल्ड बँक) नोंद. मुख्य कार्यालयः झैन जी. रंगूनवाला बिल्डिंग,

७८, मोहम्मद अली रोड, मुंबई-४०० ००३. सिक्युरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, २००२ (नियम ८(१))

कब्जा सूचना (स्थावर मिळकतीकरिता)

ज्याअर्थी निम्नस्वाक्षरीकर्ता यांनी बॉम्बे मर्कंटाईल को-ऑप. बॅंक लि.**, भिवंडी शाखेचे,** प्राधिकृत अधिकारी म्हणून सिक्युरिटायझेशन अँड रिकन्स्टक्शन ऑफ फायनान्शिअल ॲसेटस अँड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट ॲक्ट, २००२ अन्वये आणि सिक्युरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, २००२ चा नियम ९ सहवाचता कलम १३(१२) अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून कर्जदार **मे. दि पॉलीकोज मेडिको** यांना सूचनेमध्ये नमूद केलेली रक्कम **रु.** ६,७२,५२,६९४.६८ (रुपये सहा करोड बहात्तर लाख बावन्न हजार सहाशे चौऱ्याण्णव **आणि पैसे अडुसष्ट मात्र)** अधिक पुढील व्याज ही रक्कम सदरहू सूचना प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून ६० दिवसांच्या आत चुकती करण्यासाठी बोलाविण्याकरिता १४.१२.२०१७ रोजीची मागणी सूचना निर्गमित केलेली आहे.

सदरह् कर्जदार यांनी सदरह् रक्कम चुकती करण्यामध्ये कसूर केलेली आहे. म्हणून कर्जदार, हमीदार आणि सर्वसाधारण जनतेस याद्वारे सूचना देण्यात येते की, निम्नस्वाक्षरीकर्त्यांनी त्यांना प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून सदरहू अधिनियम, २००२ चे कलम १३(४) सहवाचता सदरह नियमावलीच्या नियम ९ अन्वये यात याखाली वर्णन केलेल्या **मिळकतीचा** १२ जुलै, २०२४ रोजी प्रत्यक्ष कब्जा घेतलेला आहे.

विशेषत: कर्जदार आणि सर्वसामान्य जनता यांना याद्वारे सावधान करण्यात येते की, त्यांनी सदरह मिळकतीच्या देवघेवीचा व्यवहार करू नये आणि सदरह मिळकतीवरील कोणताही देवघेवीचा व्यवहार हा बॉम्बे मर्कंटाईल को-ऑपरेटिव्ह बँके लि. च्या रक्कम रु. ६,७२,५२,६९४.६८ आणि त्यावरील त्यापुढील व्याज या रकमेच्या प्रभाराच्या अधीन

तारण मत्तेच्या भरण्याकरिता उपलब्ध वेळेच्या संदर्भात ॲक्टच्या कलम १३ च्या उपकलम (८) च्या तरतुदीकडे कर्जदारांचे लक्ष वेधून घेतले जात आहे.

स्थावर मिळकतीचे वर्णन जमीनीसह निवासी बंगला गट क्र. ६३, घर क्र. १३ धारक, येथे आणि पोस्ट शिव बुद्रुक खेड, जि. रत्नागिरी- ४१४७०९.

दिनांक : १२.०७.२०२४

ठिकाण: खेड, रत्नागिरी

प्राधिकृत अधिकारी

डेक्कन गोल्ड माईन्स लिमिटेड

सीआयएन: एल५१९००एमएच१९८४पीएलसी०३४६६२ नोंदणीकृत कार्यालयः ५०१, आकृती ट्रेड सेंटर, रोड क्र. ७, एमआयडीसी, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-४०० ०९३. वेबसाईटः www.deccangoldmines.com, ईमेलः info@deccangoldmines.com/dgmlagm@deccangoldmines.com

सचना याद्वारे देण्यात येते की कंपनी अधिनियम, २०१३ चे तरतुर्दीच्या आणि निगम व्यवहार मंत्रालया (''एमसीए'') द्वारे जारी जनरल सर्क्युलर च्या अनुपालनात डेक्कन गोल्ड माईन्स लिमिटेड (''कंपनी'') च्या ०२/२०२४-२५ विशेष सर्वसाधारण सभा (ईजीएम) ही ०२/२०२४-२५ ईजीएमला बोलविणाऱ्या दिनांक १० जुलै, २०२४ रोजीच्या सूचनेत नमुद विशेष कामकाज करण्यासाठी **बुधवार, ०७ ऑगस्ट, २०२४ रोजी स. ११.३० वा.** (भाप्रवे), व्हिडिओ कॉन्फरसिंग (व्हीसी)

किंवा इतर ऑडिओ मिन्स (ओएव्हीएम) मार्फत घेण्यात येणार आहे. निगम व्यवहार मंत्रालया (एमसीए) ने तिच्या जे जनरल सर्क्युलर क्र. १४/२० दिनांकीत ८ एप्रिल, २०२०, १७/२०२० दिनांकित १३ एप्रिल, २०२०, २२/२०२० दिनांकित १५ जून, २०२०, ३३/२०२० दिनांकित २८ सप्टेंबर २०२०, ३९/२०२० दिनांकीत ३१ डिसेंबर, २०२०, १०/२०२१ दिनांकित २३ जून, २०२१, २०/२०२१ दिनांकित ८ डिसेंबर, २०२१, ०३/२०२२ दिनांकीत ०५ मे, २०२२, ११/२०२२ दिनांकित २८ डिसेंबर, २०२२ आणि ०९/२०२३ दिनांकीत २५ सप्टेंबर, २०२३ सह एमसीएद्वारे जारी केलेल्या अशा इतर लागू परिपत्रके आणि सिक्युरिटी ॲण्ड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (''सेबी'') तिच्या सर्क्यलर दिनांकीत १५ जानेवारी, २०२१ धारक सं. क्र. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी२/सीआयआर/पी/२०२१/११ सहवाचता . सर्क्युलर दिनांकीत १२ में, २०२० धारक सं. क्र. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी१/सीआयआर/पी/२०२०/७९ सहवाचता सर्क्युलर दिनांकित १३ में, २०२२ धारक सं.क्र. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी२/सीआयआर/पी/२०२२/६२ आणि इतर लागू कायदा आणि विनियमन अनुसार कंपन्यांना व्हिडिओ कॉन्फरसिंग (व्हीसी) किंवा इतर ऑडिओ मिन्स (ओएव्हीएम) मार्फत सर्वसाधारण सभा घेण्यासाठी परवानगी दिली आहे. त्यानुसार एमसीए

सर्क्युलर्स आणि सेबी सर्क्युलर्स आणि इतर तरतुर्दीच्या अनुपालनामध्ये कंपनी व्हीसी/ओएव्हीएम सुविधामार्फत ईजीएम बोलीविली आहे. सदर ५ मे, २०२० दिनांकीत एमसीए सर्क्युलर्स आणि सेबी सर्क्युलर्स क्र. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी१/सीआयआर/पी/२०२०/७९ दिनांकीत मे १२, २०२० नुसार भागधारकांना ईजीएमची सूचनेची प्रत्यक्ष प्रती छापणे आणि पाठविण्याच्या संदर्भात कंपन्यांना शिथलीकरण मंजुर केले आहे. त्यानुसार कंपनी कट ऑफ तारीख म्हणजेच १२ जुलै, २०२४ रोजीस कंपनी/रजिस्ट्रार आणि शेअर ट्रान्सफर एजंट/डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटस्कडे ई-मेल आयडी नोंदविलेल्या भागधारकांना ईजीएमला बोलाविणारी सूचनाची फक्त सॉफ्ट कॉपी पाठवेल. ज्या भागधारकांनी त्यांचे ईमेल आयडी कंपनी/रजिस्ट्रार आणि शेअर ट्रान्सफर एजंट/डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटस्कडे अद्ययावत केलेले नाहीत ते info@deccangoldmines.com/ dgmlagm@deccangoldmines.com येथे कंपनीकडे विनंती पाठवून ईजीएमची सूचनाची सॉफ्ट कॉपी प्राप्त करू शकतात. पर्यायी, ईजीएमची सूचना कंपनीची वेबसाईट म्हणजेच www.deccangoldmines.com स्टॉक एक्स्चेंजची वेबसाईट म्हणजेच बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com आणि लिंक इनटाईम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड ची वेबसाईट म्हणजेच www.instavote.linkintime.co.in वर सुद्धा उपलब्ध करण्यात येईल.

कंपनी अधिनियम २०१३ चे कलम १०८ सहवाचता सुधारणेनुसार कंपनीज (मॅनेजमेंट ॲण्ड ॲडिमिनिस्ट्रेशन) २०१४ चा नियम २० आणि इन्स्टिट्युट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारे जारी लिस्टिंग रेग्युलेशन्स च्या रेग्युलेशन ४४ सेक्रेटरीयल स्टॅण्डर्ड ऑन जनरल मिटिग्ज (एसएस-२) नुसार कंपनीला सदर सुचनेत नमुद सर्व ठरावांवर इलेक्टॉनिक माध्यमाने त्यांचे मतदान करणे त्यांना शक्य होण्यासाठी लिंक इनटाईम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड द्वारे परविलेल्या ''दरस्थ ई-मतदान'' च्या सविधेचा तिच्या सभासदांना प्रस्ताव दिल्याचा आनंद होत आहे.

कंपनी अधिनियम, २०१३ आणि त्या अंतर्गत स्थापित नियमांच्या तरतुदीनुसार तपशील खालील प्रमाणेः

ए. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाने होऊ शकणारे कामकाज ईजीएमची सूचना दिनांकित १० जुलै, २०२४ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे

बी. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाने दुरुस्थ ई-मतदानाच्या सुरूवातीला तारीख आणि वेळ : रविवार, ०४ ऑगस्ट, २०२४ रोजी स. ९.०० वा. (भाप्रवे) सी. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाने दुरस्थ ई-मतदानाच्या संपण्याचे तारीख आणि वेळ : मंगळवार, ०६ ऑगस्ट, २०२४ रोजी सं. ५.०० वा. (भाप्रवे)

डी. दुरस्थ ई-मतदान द्वारे मत देणे किंवा ईजीएमच्यावेळी ई-मतदान करण्याचे पात्रता निर्णय करणारे कट-ऑफ तारीख : **बुधवार, ३१ जुलै, २०२४** कोणीही व्यक्ती ज्यांनी ईजीएमची सूचना पाठविल्यानंतर कंपनीचे शेअर्स संपादित केले आहेत आणि कंपनीचे सभासद बनले आहे आणि कट-ऑफ तारीख म्हणजेच ३१, जुलै २०२४ रोजीस शेंअर्स धारण केले आहेत ते लॉगईन आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करण्यासाठी ईजीएम निमंत्रणाच्या सूचनेला जोडलेल्या टीपांमधील रिमोट ई-व्होटिंग निर्देश पाहू शकतात.

(i) दरस्थ ई-मतदान मॉड्युल **०६ ऑगस्ट, २०२४ रोजी सायं. ५.०० वा. (भाप्रवे)** लिंक इनटाईम द्वारे बंद करण्यात येईल आणि सभासदाने ठरावावर

एकदा केलेल्या मतदानात सभासदाला त्यानंतर बदल करण्याची परवानगी देण्यात येणार नाही. (ii) ०२/२०२४-२५ ईजीएम व्हीसी/ओएव्हीएम मार्फत बोलाविण्यात येत असल्यामुले प्रत्यक्ष बॅलट पेपरमार्फत मतदानाची सुविधा उपलब्ध करण्यात

येणार नाही. तथापी सभासद ई–मतदान प्लॅटफॉर्म त्यांचे मतदान करू शकतात जे ईजीएमच्या वेळी उपलब्ध करण्यात येईल. (iii) ज्या सभासदांनी एजीएम पूर्वी दरस्थ ई-मतदानादारे त्यांचे मतदान केलेले आहे ते सद्धा व्हीसी/ओएव्हीएम मार्फत एजीएमला हजर राह शकतात परंत

पन्हा त्यांचे मतदान करू शकत नाहीत (iv) ज्या व्यक्तींची नावे कट-ऑफ तारखेस डिपॉझिटरीजकडे असलेले लाभकारी मालकांचे रजिस्टर किंवा सभासद रजिस्टरमध्ये नोंदविलेली असतील

. तेच फक्त दरस्थ ई-मतदानाची सुविधा घेण्यासाठी तसेच ईजीएमच्या वेळी ई-मतदान करण्यासाठी हक्कदार राहतील दूरस्थ ई-मतदानाची प्रक्रिया आणि पद्धतीकरिता सभासद हे सभासदांसाठी असलेल्या फ्रिक्वेंटली आस्वड क्वेश्चन्स (एफएक्युज्) चा संदर्भ घेऊ शकतात आणि ''हेल्प'' सेक्शन खाली https://instavote.linkintime.co.in येथे उपलब्ध इन्स्टाव्होट ई-व्होटिंग मॅन्युअल पाह् शकतात किंवा संपर्क व्यक्ती

यांना एक ई-मेल पाठवू शकतात ज्यांचे तपशील पुढीलप्रमाणे:

नाव: प्रथमेश घुगरे

दिनांक: १६.०७.२०२४

ठिकाण: मुंबई

पद: (असोसिएट-क्लायंट रिलेशन) लिंक ईनटाईम इंडिया प्रा. लि. पत्ता: सी-१०१, २४७ पार्क, एलबीएस मार्ग, विक्रोळी पश्चिम, मंबई- ४०० ०८३.

ई-मेल आयडी : enotices@linkintime.co.in फोन क्रमांक +९१ २२ ४९१८६००० (एक्सटें: २३२८).

ज्या सभासदांनी प्रत्यक्ष स्वरूपात शेअर्स धारण केलेले आहेत आणि ज्यांचे ईमेल पत्ते कंपनीकडे नोंदविलेले नाहीत ते ०२/२०२४-२५ ईजीएमला बोलाविणाऱ्या जुलै १०, २०२४ दिनांकित सूचनेच्या टिपा सेक्शन मध्ये नमूद माहितीचा अवलंब करून सभेच्या वेळी ई-मतदानामार्फत किंवा दुरस्थ ई-

सभासदांना भविष्यात कंपनीकडून ईमेलद्वारे वार्षिक अहवाल, सूचना, सर्क्युलर इ. सह सर्व पत्रव्यवहार प्राप्त करण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात शेअर्स धारण केले असल्यास त्यांच्या डीपीज्कडे आणि प्रत्यक्ष स्वरूपात शेअर्स धारण केले असल्यास कंपनी आणि/किंवा तिच्या आरटीएकडे त्यांचे ईमेल पत्ते नोंदणी/अद्ययावत करण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे.

संचालक मंडळाच्या आदेशाद्वारे डेक्कन गोल्ड मार्डन्स लिमिटेड करिता सही / -एस. सब्रमनियम पूर्ण वेळ संचालक

कंपनी सचिव आणि अनुपालन अधिकारी

डीआयएन: ०६३८९१३८

दिनांक : जुलै १५, २०२४ ठिकाणः मुंबई

'Sai- Dwar co-operative Hsg Scociety Ltd. situated on plot bearing S. no. 204 (pt) at Village Diwanman, Tal-Vasai, Dist-Palghar Vasai-west 401202, having 22 mbers. Plot Area approx. 373.0 sc nts. as per physical survey. We are **inviting quotes from PMC fo**

TENDER NOTICE

PMC required for Redevelopment of

redevelopment of the said society PMC should have in-hous capabilities of Architects and capability of Planning and obtaining Permissions of the project from CC to OC. from Vasai-Virar Municipa Corporation. And also to be wel versed with the Society bye-laws and Building Rules and Regulations as per UDCPR.

Eligible PMC should submit thei quotes in sealed envelope with detail company profile at society office within 14 days. Society reserves the right to accept or reject any quotes.

Contact details for Secr Mr. Suresh Kazare (98905 38153)

जाहीर नोटीस

याद्वारे सर्व जनतेस सूचित करण्यात येते की, 9) श्री. भरत सत्येश्वर म्हात्रे, २) श्री. अमित सत्येश्वर म्हात्रे. ३) श्रीमती. भाज्यवंती रविंद्र घरत, ४) श्रीमती. दिपाली दिनेश पाटील, ५) श्रीमती. शैला पंकज किणी ६) श्रीमती. नर्मदा प्रकाश पाटील, नंबर १ ते ५ राहणार जुचंद्र, नायगाव (पूर्व), ता. वसई, जि. पालघर आणि नंबर ६ राहणार सानपाडा, नवी मुंबई. हयांनी गांव मौजे ससुनवघर, ता. वसई, जि. पालघर येथील सर्वे नं. ११८ हि.नं २, क्षेत्र ०-८१-०. आकार रु २.५० पैसे अशा जमीन मिळकती पैकी आमच्या सामाईक अविभाज्या हिश्याचे क्षेत्र हे.आर ०-१३-५० + क्षेत्र हे. आर ०-१३-५० एकुण क्षेत्र हे.आर ०-२७-०० अशी जमीन मिळकती माझे अशिलांना विकी करण्याचे मान्य व कबुल केले आहे. तरी सदर मिळकर्ती बाबत किंवा तिचे एखादया भागावर कोणाचाही कोणत्याही प्रकारे एखादा हक्क, हिस्सा, दावा, गहाण, बक्षीस, ताबा, भाडेपट्रटा किंवा हितसबंध असणा-या कोणीही इसमाने तो निम्नस्वाक्षरीकारांना त्यांच्या ऑफीस नं २, मेघदूत बिर्ल्डींग, रेल्वे स्टेशन समोर, विरार (पश्चिम), ता.वसई, जि. पालघर येथील पत्यावर हि नोटीस प्रसिध्द झाल्याच्या तारखेपासुन १४ दिवसाचे आत सर्व लेखी कागदपत्रासहित कळवावा.अगर तसे केले ही तर तशा प्रकारचा कोणाचाही कस प्रकारचा हक्क, हितसबंध नाही असे समजून किंवा कोणाचा हक्क, हितसबंध असल्यास तो सोड्न देण्यात आला आहे असे समजून माझे अशील सदरचा व्यवहार पुर्ण करतील व त्यानंतर कुठलीही हरकत ग्राहय धरली जाणार नाही. दिनांक. १६/०७/२०२४

सही / श्री. सुहास एस. पाटील ॲडव्होकेट हायकोर्ट

आधार हाऊसिंग फायनान्स लि. कॉर्पोरेट कार्यालय: युनिट क्र. ८०२, नटराज रुस्तमजी, वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवे आणि

एम.व्ही. रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई ४०००६९. विरार पश्चिम शाखाः कार्यालय क्र.२, १ला मजला, संदीप हाउस, तिरूपती नगर, रॉयल ॲकदमी स्कूल समोर, एम.बी.इस्टेट रोड, विरार-पश्चिम ठाणे-४०१३०३ (महा)

जोडपत्र 🗤 कञ्जा सूचना (स्थावर मिळकतीकरिता)

ज्याअर्थी, निम्नस्वाक्षरीकर्ता यांनी **आधार हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेड (एएचएफएल)** चे प्राधिकृत अधिकारी म्हणून दि सिक्युरिटायझेशन अँड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शिअल ॲसेटस् अँड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट ॲक्ट, २००२ अन्वये आणि सिक्युरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, २००२ च्या नियम ३ सहवाचता कलम १३(९२) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून खालील नमूट कर्जदार/हमीदारांना सूचनेमध्ये नमूद केलेली रक्कम सदरहू सूचना प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून ६० दिवसांच्या आत चुकती करण्यासार्ठ बोलाविण्याकरिता कंपनीच्या प्राधिकृत अधिकाऱ्यांनी मागणी सूचना निर्गमित केलेली आहे. कर्जदारांनी सदरह् रक्कम चुकती करण्यामध्ये कसूर केलेली आहे म्हणून कर्जदार/हमीदार आणि सर्वसाधारण जनतेस याद्वारे सूचना देण्यात येते की, निम्नस्वाक्षरीकर्त्यांनी सिक्युरिटी इंटरेस्ट एन्फोर्समेंट रुल्स, २००२ च्या नियम ८ सहवाचता सदर ॲक्टच्या कलम १३ च्या पोट-कलम (४) अन्वये त्यांना प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करू येथील खालील वर्णिलेल्या मिळकतीचा कब्जा घेतलेला आहे. कर्जदाराचे लक्ष तारण मत्ता विमोचनासाठी उपलब्ध वेळेच्या संदर्भात अधिनियमाच्य कलम १३ च्या पोट कलम (८) च्या तरतदींकडे वेधण्यात येत आहे. विशेषत: कर्जदार आणि सर्वसामान्य जनता यांना यादारे सावधान करण्यात येते की. त्यांनी सदरह मिळकतीच्या देवघेवीचा व्यवहार करू नये आणि सदरह मिळकतीवरील कोणताही देवघेवीचा व्यवहार हा एएचएफएलच्य खालील नमूद रक्कम आणि त्यावरील व्याज या रकमेच्या प्रभाराच्या अधीन राहील.

अ.	कर्जदार/सह-कर्जदार यांचे नाव	तारण मत्तेचे वर्णन	मागणी सूचनेची	कब्जाची
क्र.	(शाखेचे नाव)	(स्थावर मालमत्ता)	तारीख आणि रक्कम	तारीख
8	(कर्ज कोड क्र. १२२०००००३७ आणि १२२००००३२३/ विरार पश्चिम शाखा) फारूक हरेश शेख (कर्जदार) रूमा फारूक शेख (सह-कर्जदार) अभिषेक शांताराम लोंढे (हमीदार)	मिळकत धारक हाऊस क्र. ११११ एफ एन ४०३, ४था मजला, ए विंग, निसर्ग कॉम्प्लेक्स मेघना हाइट्स सेंट्रल पार्क सेक्टर ३४ए तळोजा ठाणे रोड फरसीपाडा, रायगड, महाराष्ट्र, ४१०२१० सीमाबद्ध: पूर्वः मंदीर, पश्चिमः हिंदी स्कुल, उत्तरः जुने हाऊस, दक्षिणः ७ मीटर रोड	<u>१०-०४-२०२४</u> रु.२३,८०,२४०/- आणि रु. ५,१९,३१८/-	87-06-5088

ठिकाण: महाराष्ट दिनांकः १६.०७.२०२४

प्राधिकत अधिकार्र आधार हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेड

युनियन बँक Union Bank

मुख्य कार्यालय: युनियन बँक भवन, २३९, विधान भवन मार्ग, निरमन पॉईंट, मुंबई - ४०००२९

दोन भागधारक संचालकांची निवडणूक

नामांकन आणि मोबदला समितीद्वारे योग्य आणि योग्य स्थितीचे निर्धारण आणि नामांकनाच्या छाननी नंतर केंद्र सरकार व्यतिरिक्त इतर भागधारकांमधील दोन संचालकांच्या निवडीसाठी शुक्रवार, २६ जुलै, २०२४ रोजी आयोजित बँकेच्या २२ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) च्या दिनांक १४ जून, २०२४ च्या सूचनेनुसार, सूचना याद्वारे देण्यात येते की, खालील भागधारकांचे नामांकन वैध आणि व्यवस्थित असल्याचे आढळले आहे:

अनु. क्र.	भागधारकांची नावे	पत्ता	कौशल्य क्षेत्र
	(अक्षर क्रमानुसार)		
۶.	श्री. प्रकाश चंद्र कांडपाल	सी-२७९, पनाशे व्हॅली, (कुल्हन गाव) शहस्त्रधारा रोडच्या लगत, डेहराडून -२४८०१३, उत्तराखंड.	बँकिंग, वित्त आणि अर्थशास्त्र
٦.	श्रीम. प्रीती जय राव	प्लॉट क्र. ८/९, कॅस्केड बंगला सोसायटी, वाकड हिंजवडी रोड, वाकड, पुणे,महाराष्ट्र -४११ ०५७.	माहिती तंत्रज्ञान तज्ञ आणि बँकिंग मंडळचा पूर्वीचा अनुभव आहे
₹.	श्री. संजय कपूर	एच. क्र. २९६, सेक्टर १५, पंचकुला-१३४११२, हरियाणा.	एक चार्टर्ड अकाउंटंट म्हणून
٧.	श्री. सुरेश चंद गर्ग	बी-१३६, १०-बी योजना, गोपाळपुरा बायपास, जयपूर - ३०२०१८.	वित्त, बँकिंग आणि अर्थशास्त्र

उपरोक्त उमेदवारांचे प्रोफाइल बँकेच्या वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in/english/General-Meeting.aspx वर उपलब्ध करून

उपरोक्त उमेदवारांपैकी कोणताही उमेदवार आपला उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यास इच्छुक असल्यास तो बँकेच्या कामकाजाच्या वेळेपूर्वी, म्हणजेच, शक्रवार, १९ जलै, २०२४ रोजी सं. ५,०० वा. त्यापूर्वी कंपनी सचिव, गतवणकदार सेवा विभाग, यनियन बँक ऑफ इंडिया, १२ मजला, यनियन बँक भवन, २३९, विधान भवन मार्ग, नरिमन पॉइंट, मुंबई – ४०००२१ एक पत्र किंवा investorservices@unionbankofindia.bank येथे ई-मेलद्वारे स्कॅन केलेले आणि स्वाक्षरी केलेले पत्र पाठवून करू शकतात.

ठिकाण : मुंबई (एस.के. डॅश) दिनांक: १५.०७.२०२४ कंपनी सचिव



Franklin Templeton Mutual Fund

Registered Office: One International Center, Tower 2, 12th and 13th Floor, Senapati Bapat Marg, Elphinstone Road (West), Mumbai 400013

Income Distribution cum capital withdrawal (IDCW) in Franklin India Dynamic Asset Allocation Fund of Funds and Franklin India Debt Hybrid Fund.

The Trustees of Franklin Templeton Mutual Fund have decided to distribute the following Income Distribution cum capital

Name of the Schemes / Plans / Options	Face Value per Unit (₹)	Amount of IDCW per Unit* (₹)	NAV per Unit as on July 12, 2024 (₹)			
Franklin India Dynamic Asset Allocation Fund of Funds (FIDAAF)						
FIDAAF - IDCW Plan	10.00	0.850	44.8384			
FIDAAF - IDCW Plan- Direct	10.00	1.000	52.5750			
Franklin India Debt Hybrid Fund (FIDHF)	•					
FIDHF - Monthly IDCW Plan	10.00	0.085	13.4434			
FIDHF - Monthly IDCW Plan- Direct	10.00	0.095	15.2111			

The Record Date for the same will be July 19, 2024 (Friday). If in case the Record Date falls on a non-Business Day, the immediately following Business Day shall be the Record Date. All the Unitholders / Beneficial Owners of the IDCW plan / option of the scheme whose names appear in the records of Registrar / Depositories as on the Record Date shall be entitled to receive IDCW. The investors in the IDCW re-investment plan/option will be allotted units for the IDCW amount at the NAV of next Business Day after the Record Date.

Please note that the IDCW payout shall be subject to the availability of distributable surplus and if the available distributable surplus as on the record date is lower than the aforementioned IDCW rate, then the available distributable surplus shall be paid out. The payout shall be subject to tax deducted at source i.e. TDS, as applicable.

Pursuant to payment of IDCW, the NAV of the scheme would fall to the extent of payout and statutory levy (if applicable). For Franklin Templeton Asset Management (India) Pvt. Ltd.

(Investment Manager of Franklin Templeton Mutual Fund)

Authorized Signatory Date: July 15, 2024

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

सारस्वत सारस्वत को-ऑपरेटिव्ह बँक लि.

वसुली विभाग : ७४-सी, समाधान बिल्डिंग, २ रा मजला, सेनापती बापट मार्ग (तुलसी पाईप रोड), दादर (पश्चिम), मुंबई-४०० ०२८. दुरध्वनी क्र : +९१ २२ २४२२ १२०२ / ०४ / ०६ / ११ फॅक्स न : + ९१ २२ २४३८ १३१०

ई-लिलाव विक्री सूचना

(लिलाव विक्री / बोली फक्त वेबसाईट https://sarfaesi.auctiontiger.net मार्फत करण्यात येईल) दि सिक्युरिटायझेशन ॲण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शियल ॲसेट्स ॲण्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट

(सरफैसी) ॲक्ट, २००२ अंतर्गत बँकेकडे प्रभारित स्थावर मालमत्तेची विक्री. निम्नस्वाक्षरीकारानी **सारस्वत को-ऑप. बँक लि.**चे **प्राधिकृत अधिकारी** म्हणून १२(२) अन्वये जारी केलेल्या मागणी सूचनेनुसार सरफैसी ॲक्टच्या

कलम १३ (४) अन्वये खालील मालमत्तेचा कब्जा घेतला. तमाम जनतेला कळविण्यात येते की, बँकेच्या थकबाकीच्या वसुलीकरिता खालील नमूद खटल्यातील प्रस्तावित मालमत्तेचा ई-लिलाव (सरफैसी ॲक्ट, २००२ अंतर्गत) खालील विनिर्देशानुसार <mark>''जे आहे जेथे आहे तत्त्वाने'', ''जे आहे जसे आहे तत्त्वाने'' आणि ''कोणत्याही दायित्वाशिवाय तत्त्वाने</mark> करण्यात येणार आहे.

47.	e altra a lit olici.			
आ.	कर्जदार, सहन्कर्जदार, हमीदार,	ए. मागणी सूचनेची तारीख	मालमतेचे वर्णन	l. राखीत किंमत
귫.	गहाणवटदार, कायदेशीर वारस	बी. मागणी सूचनेची रक्कम		I. इअर (इसारा अनामत रक्कम)
	(जर लागू असल्यास) यांची नावे	सी. कब्जाचा प्रकार / तारीख		III. बोली वाढविण्याची रक्कम
٩	कर्जदारः समंता ज्वेलसं (कर्जदार) द्वारा प्रोप्रायटर श्री. बिकास जीवन समंता हमीदार : सौ. श्रबन्ती बिकास समंता	ए. ०९.०८.२०२१ बी. दि. ०१.०७.२०२१ रोजीस रु. १,२२,५०,२५१.१४ (रु. एक करोड बावीस लाख पनास हजार दोनशे एकावन	फ्टंट क्रमांक २०१, दुसरा मजला, कासम कमर्शियल आर्केड, १३८, स्टेशन रोड,	III रु. ०.५० लाख निरीक्षणाची वेळ / तारीख : २४.०७.२०२४ रोजी दु. ०३.०० ते संघ्या. ५.०० वरम्यान
	गहाणवटदारः श्री. बिकास जीवन समता सौ. श्रबन्ती बिकास समता	आणि चौदा पैसे मात्र) सी. प्रत्यक्ष कब्जा / १२.१२.२०२३	(मोजमापित क्षेत्र	इ. अ. र. आणि केवायसी सादरीकरणाची अंतिम तारीख : वेळ : ०६.०८.२०२४ / संध्या ५.०० पर्यंत ई-लिलावाची तारीख / वेळ ०७.०८.२०२४ / दू. २.०० ते दू. ३.०० वा. दरम्यान

लेलाव हा बँकेचे मजुरीत सेवा पुरवठादार **मे. ई-प्रॉक्युरमेंट टेक्नॉलॉजीज् लिमिटेड (ऑक्शन टायगर)** द्वारे होईल. बोली अर्ज, सदर विक्री / लिलावाच्य भटी व शर्ती व बोली / प्रस्ताव जमा करण्याची पद्धत https://sarfaesi.auctiontiger.net या त्यांच्या वेबसाईटवर आणि वसुली विभागामध्ये उपलब्ध असेल.

सरफैसी ॲक्ट, २००२ च्या नियम ८ (६) प्रमाणे वैधानिक सूचना ही सूचना म्हणजे विक्रीच्या तारखेपूर्वी संपूर्ण थकबाकी प्रदान करण्याकरिता सदर कर्जाच्या कर्जदार, हमीदार आणि गहाणदार यांना देखील एक सूचना

आहे. कसूर केल्यास वर उल्लेख केलेल्या लिलावाच्या तारखेस मिळकत विकली जाईल. दिनाक : १६.०७ २०२४

ठिकाण : मुंबई (टीप : स्वैर भाषांतर तफावत आढळल्यास मूळ इंग्रजी ग्राह्य)

The spirit of Mumbai is now 95 years old!

> FREE PRESS JOURNAL www.freepressjournal.in

आणि हिंतसंबंध खरेदी करण्यासाठी आमचे अशील वाटाघाटी करीत आहेत

जाहीर सूचना

सचना तमाम जनतेला याद्वारे देण्यात येते की.

शिल्पी विशाल आचार्य (विक्रेता)

यांच्याशी परिशिष्टित मिळकती च्या

संदर्भातील त्यांचे शेअर, हक्क, नामाधिकार

कोणीही व्यक्ती ज्यांचा विक्री. अदलाबदल भाडेपट्टा, परवाना, विश्वस्त, धारणाधिकार, वारसाहक, जप्ती, प्रलंबित वाद, गहाण, प्रभार, भेट, कब्जा याद्वारे किंवा अन्यथा कोणत्याही मार्गाने सदर संबंधित मिळकत किंवा तिच्या कोणत्याही भागात किंवा विरोधात कोणताही दावा असल्यास सदर तारखेपासून १४ दिवसांत निम्नस्वाक्षरीकारांना स्वागतम्, ४था मजला, प्लॉट क्र. १४१, एस.व्ही. रोड, खार पोलिस स्टेशन समोर, खार (पश्चिम), मुंबई -४०००५२ येथील त्यांच्या कार्यालयात पृष्ठचर्थ दस्तावेजी पुराव्यांसह लेखी स्वरुपात सूचित करणे आवश्यक आहे, कसूर केल्यास, आमचे अशील असा दावा आणि/किंवा हरकतीच्या संदर्भाशिवाय व्यवहार पूर्ण करतील आणि आणि दावा आणि/किंवा हरकत काही असल्यास त्यागित आणि/किंवा सोडून दिल्याचे

वरील संदर्भित परिशिष्ट (सदर मिळकतीचे वर्णन)

मानण्यात येईल.

स्वामी विवेकानंद रोड, सांताक्रुझ (पश्चिम) येथे वसलेलेल्या आणि स्थित मुंबई शहर आणि मंबई उपनगरचा नोंदणी जिल्हा आणि उपजिल्ह्यातील तालुका अंधेरी, गाव वांद्रे (पश्चिम) चा सिटी सर्व्हे क्र. जी-८१ (भाग) आणि जुना सर्व्हे क्र. २९८ (भाग), नवा सर्व्हे क्र. ३५२ (भाग), नगर नियोजन योजना ११ चा मूळ आणि अंतिम प्लॉट क्र. १८ धारक जिमनीच्या प्लॉटवर बांधलेल्या सांताक्रूझ योगनीती को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड च्या 'योगनीती' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या इमारतीच्या ६व्या मजल्यावरील मोजमापित ८५५ चौ.फू., क्र. ६०४ धारक निवासी फ्लॅट. सदर इमारतीतील क. पी-१× धारक एक स्टिल्ट कार पार्किंग स्पेस समवेत. सोसायटीने जारी केलेल्या १९ डिसेंबर. २०१३ दिनांकित शेअर प्रमाणपत्र क्र. २४ अंतर्गत विभिन्न क्र. ११६ ते १२० (दोन्ही समाविष्ट) धारक प्रत्येकी रू. ५०/- (पन्नास) च्या पूर्ण भरणा केलेल्या ५ (पाच) शेअर्ससह. दिनांकित १६ जुलै, २०२४

दिव्य शाह असोसिएटस् करिता भागीदार

मुंबई येथील नगर दिवाणी न्यायालयाच्या न्यायालयात दिंडोशी, मुंबई येथील बोरिवली विभाग गोरेगाव (उच्च न्यायालय खटला क्र. १९४७ सन २०१२) मध्ये एस. सी. खटला क्र. ३८९२

सन २०१२ मध्ये निष्पादन अर्ज क्र. १८६ सन २०२३ कीलडच डग्स (इंडिया) लि.

कंपनी अधिनियम, १९५६ अन्वये स्थापित एक कंपनी आणि जिचे नोंदणीकृत कार्यालय येथे- सी-३०१/२, एम.आय.डी.सी., टी.टी.सी. इंड. एरिया, पावने गाव, ठाणे - ४००७०१

.....वादी /आदेश धारक मे. ताज फार्मास्यटिकल्स

कंपनी अधिनियम, १९५६ अन्वये स्थापित एक कंपनी आणि जिचे नोंदणीकृत कार्यालय येथे- ४३४, लक्ष्मी प्लाझा, लक्ष्मी इंडस्ट्रियल इस्टेट, न्यू लिंक रोड, अंधेरी पश्चिम, मुंबई - ४०००५३प्रतिवादी/ न्यायनिर्णित कर्जदार

दिवाणी प्रकिया संहितेच्या XXI नियम २२ आदेश अंतर्गत सूचना प्रति,

मे. ताज फार्मास्युटिकल्स ४३४, लक्ष्मी प्लाझा, लक्ष्मी इंडस्ट्रियल

विरुद

इस्टेट, न्यू लिंक रोड, अंधेरी पश्चिम, मुंबई - 800043 (उपरोक्त नावाचे प्रतिवादी/ न्यायनिर्णित

कर्जदार) सूचना घ्यावी की, उपरोक्त खटल्यात नगर

दिवाणी न्यायालयाने २७.०३.२०२३ रोजी तुमच्याविरूद्ध बजावलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी का करू नये, याची कारणे दाखविण्यासाठी २५/०९/२०२४ रोजी स. ११.००/दु. २.४५ वा. न्यायालय खोली क्र. ३ मध्ये एच.एच.जे. श्रीम. एस. एस. तोडकर यांच्यापुढे दिवाणी प्रक्रिया संहितेच्या O.XXI. नियम २२ अंतर्गत तुम्ही प्रत्यक्ष किंवा वकिलामार्फत हजर होणे आवश्यक आहे

दिनांकित २२ डिसेंबर, २०२३ सही/-अतिरिक्त प्रबंधंक

स्वाक्षरी/-

प्राधिकृत अधिकारी

सारस्वत को-ऑप. बँक लिमिटेड

नगर दिवाणी न्यायालय <u> टिं.दोशी</u> बोरिवली विभाग, गोरेगाव सर्ही

सीलर दिनांकित २२ डिसेंबर, २०२३ मे. गोरधनदास ॲण्ड फोझदार वादींसाठी वकील एक्झामिनर प्रेस बिल्डिंग, ३५, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई -४०००२३

मोबा. क्र. ९८१९८०९३४१



Anahat, Bawa in World Jr quarterfinals



India's Anahat Singh and Shaurya Bawa entered the girls' and boys' singles quarterfinals respectively in the World Junior Squash Championships in Houston. Anahat beat Japan's Akari Midorikawa 11-6, 13-11, 11-2 in the prequarterfinals. She will take on Egypt's Nadien Elhammamy in the last eight. Bawa moved to into the quarterfinals with a 11-9, 5-11, 11-5, 13-11 win over Segundo Portabales.

ZAGREB

Gukesh seventh, Caruana on top D Gukesh finished on

seventh spot, the best among Indians, while top seeded Fabiano Caruana clinched the Superunited Rapid and Blitz with a dominant effort here. Gukesh logged 14 points in the event, while the other Indian player in the fray Vidit Gujrathi finished ninth with 11 points. It turned out to be a fine performance by Caruana following his victory in the Superbet Classic here. Caruana scored a record 27 points in the tournament that had nine rounds in rapid and 18 in Blitz and the American was clearly dominant.

shareholders have been found to be valid and in order

Name of the Shareholder

No. (in alphabetical order)

Smt. Priti Jav Rao

Shri Sanjay Kapoor

Shri Suresh Chand Garg

english/General-Meeting.aspx.

Place: Mumba

Date: 15.07.2024

investorservices@unionbankofindia.bank

3.

Shri Prakash Chandra



COPA AMERICA | 'Albiceleste' beat Colombia by solitary goal in a tough game

Argentina lifts Copa crown

MIAMI GARDENS

Argentina won its second straight Copa America championship, overcoming Lionel Messi's second-half leg injury to beat Colombia 1-0 on Lautaro Martínez's 112th-minute goal. Messi appeared to sustain a non-contact injury while running and falling in the 64th minute and covered his face with his hands as he sat on the bench and sobbed.

Martínez later ran to that bench to hug his captain after the goal that propelled Argentina to its record 16th Copa title Sunday night.

In a match that started 1 hour, 22 minutes late because of crowd trouble at Hard Rock Stadium, Argentina won its third straight major title following the 2021 Copa America and 2022 World Cup and matched Spain, which won the 2008 and 2012 European Championships around the 2010 World Cup.

Argentina also stopped Colombia's 28-game unbeaten streak dating to a February 2022 loss to the Albiceleste.



Argentina's Lionel Messi and team-mates lift the Copa America trophy. - AFP

Martínez entered in the 97th minute and scored from Giovani Lo Celso's perfect through pass after Leandro Paredes stripped the ball from a Colombian just short of the center stripe.

Just inside the penalty area, Martínez sent a right-foot shot through the upraised arms of sliding goalkeeper Camilo Vargas for his 29th international

goal, his tournament-high fifth. Appearing to be limping after the final whistle sounded well past midnight, Messi beckoned for his senior teammates to lift the trophy with him: 36-year-old Nicolás Ottamendi and Ángel Di María,

tional team. As white confetti cascaded, the trio hugged.

who is retiring from the na-

"The truth is, it's hard to describe," Di Maria said.

"It was written like that. I told the guys last night at dinner that I dreamt it. That's why I said it was my last Copa America. I dreamt we made it to the final and we won it so I could go out this way.

"I'll be always grateful to this generation who gave me everything, helped me win

It was written like that. I told the guys last night at dinner that I dreamt it. That's why I said it was my last Copa America.

Angel Di Maria Argentina player

16

Argentina's Copa America titles

Argentina-Colombia match scoreline

what I always wanted and today, I am leaving like this," Di Maria said. "It could not be

in-its-early-stages career keeps

His 2022 US Open title made

him the first teenager to reach

No 1 in the ATP rankings. His

French Open championship

last month made him the

youngest man with major titles

on hard, grass and clay courts.

Sunday's victory made him

only the third man to win

Wimbledon multiple times

before turning 22, joining

Boris Becker and Bjorn Borg.

man in the Open era, which

dates to 1968, to start a career

4-0 in Slam finals, joining Fe-

प्रत्येकी बयाना

रक्कम रू.

५,६८१/-

4, ६८१/-

4.528/-

6,664/-

५,६८१/-

५,६८१/-

It also made him the second

growing.

Crowd control issues cause match delay

Video on social media showed fans jumping over security railings



Large crowd of fans try to enter the stadium. AFP

MIAMI GARDENS

Argentina defeated Colombia 1-0 in the Copa America final in a match that was delayed more than an hour because of crowd issues, including fans breaching security gates.

Hours before Argentina won its record 16th Copa America title on Sunday evening, fans got past the gates at Hard Rock Stadium in Miami Gardens, Florida, one of the host sites for the 2026 World Cup.

Video posted on social media showed fans, mostly wearing Colombia's yellow and red colors, jumping over security railings near the southwest entrance of the stadium and running past police officers and stadium attendants. Screams could be heard in the background.

A handful of people could be seen receiving medical treatment and asking for water in the sweltering South Florida heat. Officers were able to push the crowd behind the gates and lock down the entrance so that no one could get inside, although plenty of fans with tickets had already

made it to their seats before

Security initially appeared to open gates slightly to allow only a handful a fans in at a time, while other angry attendees pushed against the rail-

After reclosing the gates, security began letting fans in slowly around 8:10 p.m., with the new kickoff time set for 9:15 p.m., but the commotion did not stop. Fans again broke through the railings, so many filing in that security scanners rocked back and forth from the force.

Miami-Dade County Mayor Daniella Levine Cava and chief public safety officer James Reyes released a statement during the game saying the county assigned more than 550 police officers to the stadium detail, plus other personnel from neighboring departments.

"Let's be clear: This situation should have never taken place and cannot happen again," read the statement.

"We will work with stadium leadership to ensure that a full review of tonight's events takes place immediately to evaluate the full chain."

Form No. 6

Exh. No.: 387

[See Regulation-15 (1)(d)]

Alcaraz wants seat at the adult table

The Spaniard is aware where many of his achievements place him in history of the game

LONDON

Roger Federer, Rafael Nadal and Novak Djokovic did not manage to collect four Grand Slam titles before turning 22, the way Carlos Alcaraz has.

None of the members of the so-called Big Three were able to triumph at both the French Open and Wimbledon in a single season before turning 22, the way Alcaraz just did, capped by a 6-2, 6-2, 7-6 (4) win against Djokovic on Sunday in the final at the All England Club for a second consecutive trophy there.

Head Office: Union Bank Bhavan, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai – 400021

Election of Two Shareholder Directors Pursuant to the Notice dated 14th June 2024 of the 22nd Annual General Meeting (AGM) of the Bank scheduled

to be held on Friday, 26th July 2024, for the election of two directors from amongst shareholders other than the

Central Government, after scrutiny of nominations and determination of their Fit and Proper status by the Nomination and Remuneration Committee, notice is hereby given that the nominations of the following

C-279, Panache Valley (Kulhan Village)

Plot No. 8/9, Cascade Bungalow Society,

Wakad Hinjewadi Road, Wakad, Pune,

Dehradun - 248013 Uttarakhand

Panchkula - 134112, Haryana

By Pass, Jaipur - 302018.

B-136A, 10-B Scheme, Gopalpura

Accordingly, the election of Two Shareholder Directors shall be held at the AGM and Remote E-voting/E-Voting

The profile of the aforesaid candidates is made available on Bank's website **www.unionbankofindia.co.in/**

Any of the aforesaid candidates desirous of withdrawing his candidature may do so at any time prior to closing

hours of the Bank i.e. **on or before 5.00 p.m. on Friday, 19th July 2024** by sending a letter addressed to

Company Secretary, Investor Services Division, Union Bank of India, 12th Floor, Union Bank Bhavan, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai – 400021 or scanned and signed letter over e-mail at

Maharashtra - 411 057

H. No. 296, Sector 15.

at AGM will be conducted as per the schedule already announced in this regard.



Alcaraz is aware of where many of his achievements particularly with regard to his age - place him in the history of the game. Those are not the milestones that interest him,

Area of expertise

Banking, Finance and

Information Technology

Finance, Banking and

Board experience.

expert and has prior Banking

As a Chartered Accountant

Union Bank

however. He wants to do more. win more. He wants to reach

"Get closer to the legends," is the way Alcaraz put it in Spanish on Sunday. "That's my ob-

कंत्राटदाराकडून निविदा मागविण्यात येत आहे

महावितरण

निविदा क्र.

Panvel division/EE

vehicle/T-08/24-25

Panyel division/AEE

vehicle/T-10/24-25

Panvel division/uitility

vehicle/T-09/24-25

Panvel division/FS

vehicle/T-07/24-25

Vashi division/Utility

vehicle/T-11/24-25

Vashi division/AEE

vehicle/T-12/24-25



At the end of my career, I want to sit at the same table as the big guys. That's my main goal. That's my dream right now

Carlos Alcaraz

jective." The list of what Alcaraz is accomplishing in his still-

खालील तक्यात दिलेल्या निविदेद्वारे वाशी मंडळ कार्यालयाच्या अधिपत्याखाली येणाऱ्या क्षेत्रा करीता खालील नमूद

bलेले वाहन ०१.०९.२०२४ ते ३१.०३.२०२६ या कालावधी करीता भाडे तत्वावर देण्याकरीता या क्षेत्रातील अनुभवी

संख्या

निविदा खरेदी शल्क रू. १०००/- + जी.एस.टी. (१८०/-रु) = ११८०/- रु प्रत्येकी. निविदा https://etender.

mahadiscom.in/eatApp/ या महावितरण संकेत स्थळा वरून दि. १६.०७.२०२४ ते २२.०७.२०२४ कालावधीमध्ये

विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत. निविदा सादरी करणाची तारीख २३.०७.२०२४ संध्याकाळी २३:०० वाजे पर्यंत आहे. निविदा, कारणे

न दाखवता रद्द करण्याचे अधिकार निम्न स्वाक्षरीकारास राखून ठेवण्यात आलेले आहेत. कृपया अधिक माहिती करीता

वाहनाचा प्रकार/

कार्यालयाचे नाव

कार,

पनवेल विभाग

जीप व तत्सम

पनवेल विभाग

टाटा एस टेंपो व तत्सम

पनवेल विभाग

टाटा सुमो व तत्सम

पनेवल विभाग

टाटा एस टेंपो व तत्सम

वाशी विभाग

जीप व तत्सम

वाशी विभाग

कार्यकारी अभियंता (प्रशासन), वाशी मंडळ यांच्याशी संपर्क साधावा भ्रमण ध्वनी क्र. ८८७९६२५०१२

अंदाजित एकुण

रक्कम रु

4, ६८, १००/-

११,३६,२००/-

११,३६,२००/

6,66,400/-

५,६८,१००/-

११,३६,२००/-

अधीक्षक अभियंता, वाशी मंडळ, वाशी.

ई-निविदा सूचना

अंदाजित महिना

रक्कम रू.

२९,९००/-

29,900/-

४१,५००/-

29,900/-

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL MUMBAI (DRT 3)

1st Floor, MTNL Telephone Exchange Building, Scctor-30 A, Vashi, Navi Mumbai- 400703 IA No. 1778/2024 In Case No : OA/267/2021

VS M/S. CHAUDHARI ENTERPRISES

IA No. 1778/2024 WHEREAS the application has been made to this Tribunal. The copy of which is enclosed herewith. This is to give you notice, as to why relief asked for should not be granted. Take notice that the said application will be taken up for hearing by the Tribunal at 10.30 a.m. or

19/08/2024 You are required to appear in person or by a Pleader/Advocate duly instructed at the aforesaid time and file your reply, if any,

3. Take notice that in default of your appearance on the day mentioned herein before, the proceeding will be heard and determined in yeur absence Given under my hand and the seal of this Tribunal on this 26/06/2024.

Note: Strike out whichever is not applicable

(seal) Signature of the Officer Authorised (SANJAI JAISWAL) REGISTRAR

DRT-TIT. MUMBAI.

3. MR. HEMANT SUBHAS BHOIR, (DECEASED) 3(A). MR. SHUBHASH RAGHUNATH BHOIR RESIDING AT S/0 RAGHUNATH BHOIR AT SANTOSH NAGAR, AT - POST - SAPRONDE,

WADA, THANE MAHARASHTRA 421312. 3(B). MRS. SUREKHA SUBHASH BHOIR RESIDING AT W/O SURESH BHOIR, KUDUS, THANE, MAHARASHTRA 421312.

(for immovable property)

The undersigned being the Authorized Officer of INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED (CIN:L65922DL2005PLC136029) (now known as SAMMAAN CAPITAL LTD) under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 and in exercise of owers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notice dated 03.04.2024 calling upon the Borrower(s) PRATIK BALARAM THOMBARE, BALARAM SHANKAR THOMBARE AND JANABAI BALARAM THOMBARE to repay the amount entioned in the Notice being Rs.15,33,603.47 (Rupees Fifteen Lakhs Thirty Three Thousand Six Hundred Three and Paise Forty Seven Only) against Loan Account No. HHLKAL00422751 as on 22.03.2024 and interest thereon within 60 days from the date of receipt of the said Notice.

The Borrower(s) having failed to repay the amount, Notice is hereby given to the Borrower(s) and the public in general that the undersigned has taken Symbolic Possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Sub-Section (4) of Section 13 of the Act read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on 11.07.2024.

The Borrower(s) in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED (now known as SAMMAAN CAPITAL LTD) for an amount of Rs.15,33,603.47 (Rupees Fifteen Lakhs Thirty Three Thousand Six Hundred Three and Paise Forty Seven Only) as on

The Borrowers' attention is invited to provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of the Act in respect of time available, to redeem the Secured Assets

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

FLAT NO. 101 HAVING CARPET AREA 27.65 SQUARE METERS. BALCONY AREA 4.94 SQUARE METERS AND CUPBOARD AREA 1.01 SQUARE METERS ON 1ST FLOOR, WING-A, IN THE BUILDING KNOWN AS "MARUTI SANKUL" LAND BEARING HISSA NO./PLOT NO. 7A, SURVEY NO. 22, SITUATED IN VILLAGE BHOPELE, TALUKA KARJAT, NERAL WEST, RAIGAD - 410101 MAHARASHTRA.

Authorised Officer Date: 11.07.2024 SAMMAAN CAPITAL LTD. (FORMERLY INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED) Place: RAIGARH

The Mogaveera Co-operative Bank Ltd.

(S. K. Dash)

Company Secretary

Regd. & Administative Office : 5th Floor, Mogaveera Bhavan, M.V.M. Educational Campus Marg, Off. Veera Desai Road, Andheri (West), Mumbai-400058 Contact for Details: 9819797543/9833220680/9819132445, Email - recovery@mogaveerabank.com

NOTICE OF SALE THROUGH PRIVATE TREATY

The undersigned as Authorized Officer of The Mogaveera Co-operative Bank Ltd., has taken over Physical Possession of the scheduled property under the SARFAESI Act. The Authorized Officer of The Mogaveera Co-operative Bank Ltd., had already conducted multiple public auctions for selling the property, but they turned out to be unsuccessful as no bids were received. Hence please be informed that if the total outstanding dues in the aforesaid loan account are not paid within Fifteen (15) Days from the date of this publication of this notice, then the Authorized Officer will proceed for sale via private treaty of the property as stated below Public at large is informed that the secured property as mentioned in the Schedule are available for sale through Private Treaty, as per the terms agreeable to the Bank for realization of Bank's dues on "as is where is basis" and on "as is what is basis".

Description of Immovable Asset/s/ Properties	Reserve Price (In Rupees)	Earnest Money Deposit	Inspection of the Property	Date and time of opening the tenders :	Name & Address of the Secured Creditors :	Name of the Borrower/ Mortgagor	Outstanding Loan Amount :	Date, time and place of Submission of Tenders/Offers :
a) M/s. Swaraj Kingston, Shop No. 13, Ground floor, Plot No. 47, Sector-18, Ulve, Navi Mumbai admeasuring 303 Sq.Ft. (Carpet Area). b) M/s. Swaraj Kingston, Hall no. 1, 1st Floor, Plot No. 47, Sector-18, Ulve, Navi Mumbai admeasuring 2171 Sq.Ft. (Carpet Area). c) M/s. Swaraj Kingston, Hall no. 2, 1st Floor, Plot No. 47, Sector-18, Ulve,Navi Mumbai admeasuring 2171 Sq.Ft. (Carpet Area).	6,50,00,000/-	(In Rs.) Rs. 10.00 lakh	01/08/2024 From 10 a.m. to 5 p.m		The Mogaveera Co-operative Bank Ltd. 5th Floor, Mogaveera Bhavan, M.V.M. Educational Campus Marg, Off. Veera Desai Road, Andheri (West), Mumbai – 400 058. Contact Nos: 9819797543/9833220680/9819132445. Email - recovery@mogaveerabank.com	- Borrower M/s. Swaraj Builders & Developers - Mortgagors	(Rupees Six crore forty lakh four thousand two hundred ten only) as on 31/12/2016 plus further interest from	Sealed Tenders/Offers shall be submitted to the Authorized Officer on or before 02/08/2024 upto 5 p.m. at Administrative Office 5th Floor, Mogaveera Bhavan M.V.M. Educational Campus Marg, Off. Veera Desai Road, Andheri (West), Mumbai- 400058

Standard terms & conditions for sale of property through Private Treaty are as under:

Sale through Private Treaty will be on "as is where is basis" and on "as is what is basis". The purchaser will be required to deposit 25% of the sale consideration on the next working day of receipt of Bank's acceptance of offer for purchase of property and the remaining amount within 15 days thereafter.

The purchaser has to deposit the Earnest Money Deposit (EMD) of Rs. 10.00 lakh along with application which will be adjusted against 25% of the deposit to be made as per clause (2) above. Failure to remit the amount as required under clause (2) above, will cause forfeiture of amount already paid including EMD paid along with application.

In case of non-acceptance of offer of purchase by the Bank, the amount of EMD paid along with the application will be refunded without any interest. The purchaser should conduct the due diligence on all aspects related to the property (under sale through Private Treaty) to his/her/their satisfaction. The purchaser shall not be entitled to make any claim against

the Authorized Officer/Secured Creditor in this regard at a later date.

In case of more than one offer, the Bank will accept the highest offer.

The purchaser has to bear all stamp duty, registration fee, and other expenses, taxes, dues, society dues, both existing and future in respect of purchaser of the property. The sale certificate will be issued in the

name of the successful bidder only. Sale shall be in accordance with the provisions of SARFAESI Act/Rules.

The aforesaid Borrower's attention is invited to provisions of section 13(8) of SARFAESI Act for redemption of secured assets mentioned hereinabove by tending the aforementioned outstanding dues together with all costs, charges and expenses incurred by the bank before the sale of secured assets.

Date: 15/07/2024 Place: Mumbai

Authorized Officer The Mogaveera Co-operative Bank Ltd.

कहां लगाएं रकम जहां मिले रिटर्न सर्वकालिक उच्चस्तर पर सेंसेक्स

निकिता वशिष्ठ नई दिल्ली, 15 जुलाई

थर बाजार में निवेश की रणनीति के तहत निवेशक जहां पिछले कुछ महीनों से और शेयर खरीदते जा रहे हैं और इस वजह से एसऐंडपी बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी-50 अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहंच गए हैं। लेकिन कैलेंडर वर्ष 2024 की पहली छमाही में चांदी ने सबसे अच्छा रिटर्न दिया है और इस दौरान उसमें 30 फीसदी से ज्यादा की उछाल आई है। मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज के शोध प्रमख (जिंस व विदेशी मद्रा) नवनीत दमानी ने कहा कि चांदी की कीमतों में तेजी भूराजनीतिक तनाव और चीन में आर्थिक रिकवरी के कारण आई है। चीन धातुओं के सबसे बड़े उपभोक्ता और उत्पादकों में से एक है।

दमानी ने कहा कि आर्थिक वृद्धि या औद्योगिक मांग के मोर्चे पर चीन के सकारात्मक संकेत कीमतों को और सहारा दे सकते हैं। चांदी की कीमतों में 30 फीसदी की वृद्धि को देखते हुए अल्पावधि में कुछ मुनाफावसूली हो सकती है। इसकी कीमतों में गिरावट खरीदारी का मौका हो सकता है। इसका अहम समर्थन स्तर 86,000-86,500 है जबकि 12 से 15 महीने का लक्ष्य संशोधित कर 1,00,000 से 1.15 लाख रुपये कर दिया गया है।

सोने के मामले में विश्लेषकों को उम्मीद है कि वास्तविक ब्याज दरों का असर पीली धात पर साल 2024 के आखिर और 2025 में पडेगा। एचएसबीसी के विश्लेषकों

रेल विकास निगम, वोडाफोन

आइंडिया, प्रेस्टीज एस्टेट्स और

ऑयल इंडिया को अगले महीने होने

वाली पुनर्संतुलन की कवायद के

दौरान एमएससीआई ग्लोबल स्टैंडर्ड

इंडेक्स में शामिल किया जा सकता है।

नुवामा ऑल्टरनेटिव ऐंड क्वांटिटेटिव

रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक व्यापक

तौर पर ट्रैक किए जाने वाले

एमएससीआई सूचकांकों में शेयरों को

शामिल करने या उससे बाहर

निकालने की गणना की कटऑफ

तारीखयातो गुरुवार होगी या शुक्रवार।

बीएस संवाददाता

मुंबई, 15 जुलाई

परिसंपत्तियों की कीमतों में बदलाव

परिसंपत्तियां कैलेंडर वर्ष 24 की पहली छमाही में बदलाव (%) बिटकॉइन/प्रति डॉलर 36.9 चांदी डॉलर प्रति आउंस 30.4 निफ्टी स्मॉलकैप 100 24.9 निफ्टी मिडकैप 100 23.7 एसऐंडपी 500 इंडेक्स 18.3 सोना डॉलर प्रति आउंस 15.5 ब्रेंट क्रुड डॉलर प्रति बैरल 11.9 एनएसई निफ्टी-50 इंडेक्स 11.8 एसऐंडपी बीएसई सेंसेक्स 10.5 एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स 8.5 एसबीआई-एक साल की जमाएं ०.० आधार अंक भारतीय रुपया -0.4 स्रोत : ब्लूमबर्ग संकलन : बीएस रिसर्च ब्यूरो नोट : इस साल 11 जुलाई तक का प्रदर्शन

ने सोने के लिए औसत कीमत अनुमान में इजाफा किया है लेकिन उनका मानना है कि इस साल चौथी तिमाही या 2025 में इसकी कीमतें रहेंगी। एचएसबीसी सिक्योरिटीज के विश्लेषक जेम्स स्टील ने कहा कि हम 2024 में ट्रेडिंग रेंज 2,200 डॉलर से 2,600 डॉलर प्रति आउंस के बीच देख रहे हैं।

जिंस को लेकर दिलचस्पी साल 2024 की बाकी अवधि में बनी रह सकती है, लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि शेयर बाजार में लार्जकैप शेयर मिड व स्मॉलकैप के मुकाबले बेहतर रिटर्न दे सकते हैं।

इक्विनॉमिक्स रिसर्च संस्थापक व शोध प्रमुख जी. चोकालिंगम ने कहा कि सभी परिसंपत्ति वर्गों में निवेशकों को सबसे पहले सोने में निवेश करना

चाहिए, उसके बाद शेयरों में। विभिन्न केंद्रीय बैंक भी और सोना खरीद सकते हैं जिनसे कीमतें आगे भी मजबत बनी रह सकती हैं। केंद्रीय बैंकों की तरफ से ब्याज दरों में कटौती से भी सोने की कीमतों में इजाफा हो सकता है।

राबोबैंक इंटरनैशनल के मुताबिक भूराजनीतिक तनाव की वजह से तेल की कीमतें कैलेंडर वर्ष 24 के ज्यादातर हिस्सों में मजबूत रह सकती है। उनका मानना है कि ब्रेंट क्रड की औसत कीमतें दसरी-तीसरी तिमाही में औसतन 91 डॉलर प्रति बैरल रहेंगी जो मौजूदा स्तर 85 डॉलर से करीब 7 फीसदी ज्यादा हैं। चौथी तिमाही में तेल 90 डॉलर प्रति बैरल रह सकता है और परे साल का औसत 89.5 डॉलर

प्रति बैरल रहने की आशा है। उन्होंने हालिया नोट में कहा कि हमने साल 2025 के लिए सालाना औसत संशोधित कर 93.5 डॉलर और 2026 के लिए 98.75 डॉलर कर दिया है। हमारा अनुमान है कि डब्ल्युटीआई कीमतें 2024 की दुसरी-तीसरी तिमाही में औसतन 87.25 डॉलर रहेंगी वहीं चौथी तिमाही में 85.60 डॉलर और परे साल का औसत 85.5 डॉलर रहेगा। हमने 2025 के लिए अपने सालाना औसत को संशोधित कर 88.9 डॉलर और 2026 के लिए

शेयर बाजार का परिदृश्य

93.75 डॉलर कर दिया है।

विश्लेषकों ने कहा कि इक्विटी ने ज्यादातर सकारात्मक चीजों को शामिल कर लिया है और अब उनके फंडामेंटल को समायोजित करने की संभावना है। ऐसे में ऊंचे भावों को सही ठहराने के लिए आय में वृद्धि जरूरी होगी। उन्होंने कहा शेयरों के लिए चिंता का विषय बनी क्योंकि अर्थव्यवस्थाओं मसलन फ्रांस, ब्रिटेन आदि के चुनाव नतीजे नवंबर 2024 में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले अनिश्चितता में इजाफा कर

तलनात्मक आकर्षक मल्यांकन (24.5 गुना पीई) के आधार पर उन्हें स्मॉलकैप के मुकाबले लार्जकैप पसंद हैं। स्मॉलकैप अभी करीब 38 गना पीई पर कारोबार कर रहे हैं। प्रभुदास लीलाधर के शोध प्रमुख अमिष अग्रवाल ने कहा कि हमने निफ्टी-50 का लक्ष्य बढ़ाकर 26,398 (पहले 25,816) कर दिया है जो मौजदा स्तर से 7.7 फीसदी ज्यादा है। हमें उम्मीद है कि बाजार इसी के आसपास मजबूत होगा। हम गिरावट के दौरान खरीद की सलाह दे रहे हैं।

ब्रोकरेज का मानना है कि पूंजीगत बुनियादी लॉजिस्टिक्स-पोर्ट्स, हॉस्पिटल्स, पर्यटन, ऑटो, न्य एनर्जी, ई-कॉमर्स और दूरसंचार थीम में बेहतरी की क्षमता है लेकिन निवेशकों को मूल्यांकन को लेकर सजग रहने की जरूरत है। अग्रवाल ने कहा कि सामान्य मॉनसून और बजट में ग्रामीण और मध्य वर्ग के लिए कुछ रियायतें एफएमसीजी, टिकाऊ उपभोक्ता, ऑटो, खुदरा व बिल्डिंग मैटीरियल्स जैसे क्षेत्रों की मांग को बहाल कर देंगी। विश्लेषक बिटकॉइन को लेकर सतर्क हैं क्योंकि इसमें सटोरिया गतिविधियां बनी हुई है, जिससे उसके अंतर्निहित पोर्टफोलियो का पता

बीएसई सेंसेक्स 145 अंक से अधिक की तेजी के साथ नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ। निफ्टी भी नए शिखर पर पहुंच गया। कारोबारियों के अनुसार विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) के पंजी प्रवाह और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के शेयरों में लिवाली से बाजार में तेजी रही। 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 145.52 अंक यानी 0.18 फीसदी की बढ़त के साथ नए रिकॉर्ड स्तर 80.664.86 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 343.2 अंक तक चढ़कर 80,862.54 अंक के सर्वकालिक उच्चस्तर पर पहुंचा था। नैशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 84.55 अंक यानी 0.35 फीसदी की बढ़त के साथ 24.586.70 अंक के नए शिखर पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 132.9 अंक की बढ़त के

24,635.05 अंक के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा था। सेंसेक्स के शेयरों में भारतीय स्टेट बैंक सबसे ज्यादा 2.55 फीसदी चढ़ा। कोष की सीमांत लागत आधारित ब्याज दर (एमसीएलआर) में वृद्धि की घोषणा के बाद बैंक का शेयर चढा। एनटीपीसी, अल्टाटेक सीमेंट, महिंद्रा ऐंड महिंद्रा, बजाज फाइनैंस, टाटा मोटर्स, मारुति और आईटीसी प्रमुख रूप से लाभ में रहे। नुकसान वाले शेयरों में एशियन पेंट्स, टाटा स्टील, ऐक्सिस बैंक, जेएसडब्ल्यू स्टील, टेक महिंद्रा और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज शामिल हैं।

जियोजित फाइनैंशियल सर्विसेज के शोध प्रमख विनोद नायर ने कहा, 'बजट को लेकर सकारात्मक रुख के साथ घरेल बाजार में तेजी बनी हुई है। मजबूत एफआईआई (विदेशी संस्थागत निवेशक) प्रवाह और आईटी कंपनियों के उम्मीद से बेहतर वित्तीय नतीजों से



भी बाजार को बढ़त मिल रही है।' उन्होंने कहा, 'सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के शुरुआती परिणाम के साथ पीएसय सचकांक में मजबती आई है।'

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में इंडियन ओवरसीज बैंक 7.35 फीसदी चढा। केनरा बैंक, पंजाब नैशनल बैंक, युको बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और युयिनयन बैंक में भी तेजी रही। मझोली कंपनियों के शेयरों का प्रतिनिधित्व करने वाला बीएसई मिडकैप 0.95 फीसदी चढ़ा जबकि छोटी कंपनियों से जुड़ा स्मॉलकैप सूचकांक 0.21 फीसदी के लाभ में रहा। एशिया के अन्य बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी और चीन का शांघाई कम्पोजिट लाभ में जबिक हॉन्गकॉन्ग का हैंगसेंग नुकसान में रहा। युरोप के प्रमुख बाजारों में कारोबार के दौरान गिरावट का रुख रहा। अमेरिकी बाजार शक्रवार को सकारात्मक दायरे में रहा।

यूनियन बैंक Union Bank

केंद्रीय कार्यालय : यूनियन बैंक भवन, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400021

नोटिस

दो शेयरधारक निदेशकों का मतदान

शुक्रवार, 26 जुलाई, 2024 को होने वाली बैंक की 22वीं वार्षिक महासभा बैठक (एजीएम) की 14 जून, 2024 की सूचना के अनुसरण में, नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा नामांकन की जांच और उनकी उचित और उपयुक्त स्थिति के निर्धारण के बाद, केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से दो निदेशकों के चुनाव के लिए, एतद्दवारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित शेयरधारकों के नामांकन वैध एवं सही पाए गए है:

बैंकिंग, वित्त और अर्थशास्त्र
सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ और बैंकिंग बोर्ड का पूर्व अनुभव
सनदी लेखाकार के रूप में
वित्त, बैंकिंग और अर्थशास्त्र
1

तदनुसार, दो शेयरधारक निदेशकों के चयन हेतु मतदान एजीएम में किया जाएगा और इस संबंध में पहले से ही घोषित सारणी के अनुसार एजीएम में रिमोट ई वोटिंग/ई वोटिंग होगा

उपर्युक्त उम्मीदवारों की प्रोफ़ाइल बैंक के वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in/english/General-Meeting.aspx

उपर्युक्त में से कोई भी उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी वापस लेने का इच्छुक हो तो वह किसी भी समय बैंक बंद होने से पूर्व यथा शुक्रवार, 19 जुलाई, 2024 को 5.00 बजे या उससे पूर्व पत्र द्वारा कंपनी सचिव, निवेशक सेवाएँ प्रभाग, यूनियन बैंके ऑफ . इंडिया, 12वीं मंजिल, यूनियन बैंक भवन, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई –400021 को सुचित कर सकते हैं या स्कैन एवं हस्ताक्षरित पत्र investorservices@unionbankofindia.bank ईमेल पर प्रेषित कर सकते हैं.

दिनांक : 15.07.2024

(एस.के.दास)

CIN: L65991DL1990PLC041796 पंजीकृत कार्यालयः 5वीं मंजिल, कुंदन मवन, आजादपुर वाणिज्यिक परिसर, आजादपुर, दिल्ली—110033

सैटिन क्रेडिटकेयर नेटवर्क लिमिटेड

34वीं वार्षिक आम बैठक और ई-वोटिंग की सूचना

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि सैटिन क्रेडिटकेयर नेटवर्क लिमिटेड **("कंपनी")** की 34वीं वार्षिक आम बैठक **("एजीएम")** शुक्रवार, 9 अगस्त, 2024 को सुबह 11:00 बजे (आईएसटी) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") / अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों ("ओएवीएम") के माध्यम से एजीएम की सूचना ("सूचना") में निर्धारित व्यवसाय(व्यवसायों) की पूरा करने के लिए आयोजित

सामान्य परिपत्र संख्या 14 / 2020 दिनांक 8 अप्रैल. 2020. 17 / 2020 दिनांक 13 अप्रैल. 2020. 20 / 2020 दिनांक 5 मई. 2020 28 / 2020 दिनांक 17 अगस्त, 2020, 02 / 2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021, 19 / 2021 दिनांक 8 दिसंबर, 2021, 21 / 2021 दिनांक 14 दिसंबर, 2021, 02/2022 दिनांक 5 मई, 2022, 10/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022 और नवीनतम परिपत्र के अनुपालन में, सामान्य परिपत्र संख्या ०९ / २०२३ दिनांक २५ सितंबर, २०२३ ("इसके बाद सामृहिक रूप से **"एमसीए"** के रूप में संदर्भित परिपत्र") और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय **("एमसीए")** द्वारा जारी किए गए किसी भी अपडेट के साथ पढ़ें परिपत्र संख्या सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी1 / सीआईआर / पी / 2020 / 79 दिनांक 12 मई, 2020, परिपत्र संख्या सेबी / एचओ ′सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021 और सेबी/एचओ/ सीएफडी / पीओडी – 2 / पी / सीआईआर / 2023 / 4 दिनांक 5 जनवरी, 2023 और सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएफडी-पीओडी-2 / पी / सीआईआर / 2023 / 167 दिनांक ७ अक्टबर, 2023 भारतीय प्रतिभति और विनिमय बोर्ड ("सेबी") द्वारा जारी (इसके बाद सामहिक रूप से "सेबी परिपत्र" के रूप में संदर्भित), कंपनी ने वित्तीय वर्ष ("वित्त वर्ष") 2023–24 के . लिए एजीएम और एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट की सूचना सोमवार, 15 जुलाई, 2024 को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन सदस्यों को जिनके ई–मेल पते कंपनी / रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट **("आरटीए")** / डिपॉज़िटरी प्रतिमागी(ऑ) **("डीपी")** के पास पंजीकृत

सदस्य ध्यान दें कि वित्त वर्ष 2023–24 के लिए नोटिस और एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.satincreditcare.com. स्टॉक एक्सचेंजों यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड पर क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com. और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड **("सीडीएसएल")** पर www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुपालन में, समय—समय पर संशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 44, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक और पूर्वोक्त एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्रों द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार, . सदस्यों को सीडीएसएल द्वारा प्रदान की गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली **("रिमोट ई—वोटिंग")** का उपयोग करके नोटिस में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपना वोट डालने की सुविधा प्रदान की जा रही है। शुक्रवार, 2 अगस्त, 2024 **("कट—ऑफ तारीख")** तक इक्विटी शेयर रखने वाले सदस्यों के पास उनकी होल्डिंग के सामने दिखाएँ गए अनुसार प्रति शेयर एक वोट होगा। एजीएम में रिमोट ई—वोटिंग ∕ ई—वोटिंग के लिए विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना में प्रदान की गई है।

रिमोट ई-वोटिंग अवधि मंगलवार, 6 अगस्त, 2024 को सुबह 9:00 बजे (आईएसटी) से शुरू होगी और गुरुवार, 8 अगस्त, 2024 को शाम 5:00 बजे (आईएसटी) समाप्त होगी। इसके बाद सीडीएसएल द्वारा रिमोट ई—वोटिंग मॉड्यल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपने वोट डाले हैं, वे वीसी∕ओएवीएम के माध्यम से भी एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन वे ऐसे प्रस्तावों पर फिर से अपना वोट डालने के हकदार नहीं होंगे

जो सदस्य भौतिक रूप में शेयर रखते हैं या जिन्होंने कंपनी / आरटीए / डीपी के साथ अपना ई–मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है या कोई भी व्यक्ति जो एजीएम की सूचना भेजे जाने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है और कट-ऑफ तिथि तक शेयर रखता है, वह रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से या एजीएम में ई–वोटिंग के माध्यम से नोटिस में बताए गए तरीके से अपना वोट दे सकता है। जो व्यक्ति

कट—ऑफ तिथि तक सदस्य नहीं है, उसे इस सूचना को केवल सूचना के उद्देश्य से लेना चाहिए। अपने डीपी द्वारा बताई गई प्रक्रिया के अनुसार अपने डीमैट खाते में ई-मेल पता पंजीकृत/

2024 को तथा SEBI/HO/MIRSD/POD1/P/CIR/2024 / 81 दिनांक 10 जून 2024 के अनुसार निर्धारित फॉर्म

फिल्सिकल होल्डिंग

कंपनी ने उन सदस्यों को पत्र भेजा है जिनके फोलियो अधूरे हैं, ताकि वे उपरोक्त सेबी परिपत्र के अंतर्गत आवश्यव विवरण प्रस्तत कर सकें। सदस्य कंपनी की वेबसाइट https://satincreditcare.com./investor-relations-satin-creditcare

/#Other पर निवेशक FAQ के अंतर्गत "केवाईसी विवरण का अद्यतन और डीमैट रूप में शेयरों का अनिवार्य निर्गम

("RTA"), मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ swapann@linkintime.co.in पर ईमेल भेजकर ।

ISR-1 और अन्य प्रासंगिक फॉर्म में विवरण पंजीकृत / अद्यतित करें, कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट

के अंतर्गत अक्सर पछे जाने वाले प्रश्न ("FAQs") भी देख सकते हैं। कंपनी के निदेशक मंडल ने मेसर्स राजीव भाटिया एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट (आईसीएआई सदस्यता संख्या 089018) श्री राजीव भाटिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से एजीएम में मतदान और दूरस्थ ई–वोटिंग प्रक्रिया की

जांच करने के लिए स्क्रूटिनाइज़र के रूप में नियुक्त किया है। सदस्यों को यह भी सुचित किया जाता है कि यदि ई–वोटिंग के संबंध में आपके कोई प्रश्न या समस्याएँ हैं, तो आप www.evotingindia.com पर "सहायता" अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध FAQs और ई—वोटिंग मैनुअल देख सकते हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई—मेल लिख सकते हैं। ई—वोटिंग सुविधा से संबंधित सभी शिकायतें श्री राकेश दलवी प्रबंधक, सीडीएसएल, ए विंग, 25वीं मंजिल, मैराथन फ्यूचरएक्स, मफतलाल मिल कंपाउंड्स, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई — 400013 को भेजी जा सकती हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई—मेल भेजी जा सकती हैं या 1800 22 55 33

सैटिन क्रेडिटकेयर नेटवर्क लिमिटेड के लिए

एचडीएफसी बैंक, इंडस टावर्स और एम्फैसिस का भार इंडेक्स में बढ़ेगा। सबसे बड़ा एचडीएफसी बैंक पर होगा जिसका भार दोगुना हो सकता है क्योंकि जून तिमाही में विदेशी निवेशकों के लिए

समायोजित करना होगा

वैश्विक सूचकांक प्रदाता बदलाव की घोषणा 13 अगस्त को करेगा। और फंडों को 30 अगस्त तक अपनी पोजीशन समायोजित करनी होगी। रिपोर्ट के मुताबिक डिक्सन टेक्नोलॉजिज व कोचीन शिपयार्ड अन्य शेयर हैं जिन्हें इंडेक्स आधा दर्जन और में जगह मिल सकती है। शामिल किए जाने के बाद वोडाफोन आइंडिया में 1.2 अरब डॉलर का निवेश आ सकता है। यूनो मिंडा, जाइडस लाइफ और ओरेकल फाइनैंशियल सर्विसेज को भी इंडेक्स में शामिल किए जाने की उम्मीद है। तेजी आएगी।

एमएससीआई में शामिल हो सकती

हैं वोडाफोन, रेल विकास निगम

वैश्विक सूचकांक प्रदाता बदलाव की घोषणा 13 अगस्त को करेगा। और फंडों को 30 अगस्त तक अपनी पोजीशन को

इसमें निवेश की गंजाइश बढी है।

नुवामा का अनुमान है कि एचडीएफसी बैंक में 3 अरब डॉलर का निवेश आ सकता है जबकि इंडस टावर्स व एम्फैसिस में क्रम से 13.5 करोड़ डॉलर और 4.6 करोड़ डॉलर। इस बीच, करीब एमएससीआई इंडेक्स में शामिल होने की दौड़ में हैं। इनमें इरेडा, ओबेरॉय रियल्टी, शेफलर इंडिया और एल्केम लैब शामिल हैं। इंडेक्स में शामिल करने पर विचार तभी होगा जब इन शयरों में 12 जून के स्तर से 10 से 25 फीसदी के बीच

सर्वोच्च स्तर पर ओएनजीसी मार्केट कैप 4 लाख करोड़ के पार

दीपक कोरगांवकर मुंबई, 15 जुलाई

वृद्धि के मजबूत परिदृश्य के कारण ओएनजीसी का शेयर सोमवार को बीएसई पर कारोबारी सत्र के दौरान 5.4 फीसदी उछलकर 323.60 रुपये के सर्वोच्च स्तर पर पहंच गया। सरकारी स्वामित्व वाली इस कंपनी का शेयर 10 साल के लंबे अंतराल के बाद नई ऊंचाई पर पहुंचा है। शेयर ने 9 जून, 2014 की पिछली ऊंचाई 314.67 रुपये (बोनस शेयर से समायोजित) को पार कर लिया। शेयर में तेजी के कारण ओएनजीसी का बाजार पूंजीकरण 4 लाख करोड़ रुपये के पार चला गया।

बीएसई पर ओएनजीसी का शेयर अंत में 5 फीसदी की बढ़त के साथ 322.55 रुपये पर बंद हुआ जबकि सेंसेक्स में 0.18 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। 4.06 लाख करोड़ रुपये के बाजार पूंजीकरण के साथ ओएनजीसी अब 15वीं सबसे मूल्यवान कंपनी है और तीसरी सबसे बड़ी पीएसयू। इससे ऊपर भारतीय स्टेट बैंक (7.87) लाख करोड़ रुपये) और एलआईसी

पिछले एक साल में 91 फीसदी की बढ़त के साथ ओएनजीसी ने शेयर बाजार के मुकाबले उम्दा प्रदर्शन किया

(6.7 लाख करोड़ रुपये) है। ओएनजीसी का शेयर 6 जून के निचले स्तर 227 रुपये से 43 फीसदी उछला है। पिछले एक साल में 91 फीसदी की बढ़त के साथ ओएनजीसी ने बाजार के मुकाबले (21 फीसदी की तेजी) उम्दा प्रदर्शन किया है। ओएनजीसी देश में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की सबसे बड़ी उत्पादक है और देश के कुल उत्पादन में वह करीब 68.2 फीसदी का योगदान करती है। वह वैल्यू ऐडेड प्रॉडक्ट्स मसलन एलपीजी, सुपीरियर केरोसिन (एसकेओ) और नाफ्था की अहम उत्पादक भी है। कंपनी के वियतनाम, नॉर्वे, मिस्र, ट्यूनीशिया, ईरान और ऑस्टेलिया के तेल क्षेत्रों

में संयक्त उद्यम हैं। 29 मई, 2024 को एसऐंडपी

ग्लोबल रेटिंग्स ने ओएनजीसी का रेटिंग परिदृश्य संशोधित कर स्थिर से सकारात्मक कर दिया था। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने कहा था कि ओएनजीसी का सकारात्मक रेटिंग परिदृश्य भारत पर लंबी अवधि की सॉवरिन क्रेडिट रेटिंग के परिदश्य को दिखाता है।

फाइनैंशियल सर्विसेज के मुताबिक ओएनजीसी आय के मोर्चे पर अपना प्रदर्शन सुधार सकती है, जिसे केजी 98/2 फील्ड से बढ़े उत्पादन, खोज के मद्रीकरण, बढे पुंजीगत खर्च और अप्रत्याशित कर के संभावित समायोजन से मदद मिल सकती है।

आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के विश्लेषकों ने ओएनजीसी को खरीद की रेटिंग के साथ 340 रुपये प्रति शेयर का कीमत लक्ष्य दिया है। मजबूत नकदी प्रवाह और उत्पादन परिदृश्य, अगले दो-तीन साल में सहायक की मजबूत आय व सूचीबद्ध निवेश की उच्च निवेश कीमत से कंपनी के शेयर की लक्षित कीमतें बढ़ सकती है। ब्रोकरेज ने चौथी तिमाही के नतीजे के समय ये बातें कही थीं।

होंगी 35 नई कंपनियां मुंबई, 15 जुलाई

बाजार नियामक सेबी के विश्लेषण के मुताबिक डेरिवेटिव की पात्रता के लिए शेयरों के नए नियमों से सूची में मौजूदा 182 शेयरों की संख्या बढ़कर 191 तक पहुँच सकती है। सेबी ने एक नोट में कहा कि इस संशोधन से वायदा एवं विकल्प (एफऐंडओ) से 26 शेयर बाहर निकल सकते हैं जबिक 35 शामिल हो सकते हैं। लेकिन इससे बेंचमार्क सूचकांकों निफ्टी-50 व सेंसेक्स के शेयरों में तत्काल कोई बदलाव नहीं होगा। इन सूचकांकों का हिस्सा बनने के लिए उन्हीं शेयरों को चुना जा सकता है जो एफऐंडओ के पात्र होते हैं। एफऐंडओ की पात्रता शर्तों में पिछली बार 2018 में संशोधन हुआ था और यह सूची पिछले दो साल से चली आ रही है। सेबी का विश्लेषण मई के आंकड़ों पर आधारित है। सेबी का फैसला हालांकि अधिसचना जारी होने के बाद लाग होगा लेकिन नियामक ने पहले कहा था कि ये बदलाव इस बारे में परिपत्र जारी होने के तीन महीने बाद लाग होंगे।

एफऐंडओ की नई सूची में

जुन की बोर्ड बैठक में नियामक ने पात्रता मानकों में संशोधन को मंजूरी दी थी। इसके तहत कथित मार्केट वाइड पोजीशन मीडियन क्वार्टर सिग्मा ऑर्डर साइज और नकदी बाजार में रोजाना औसत डिलिवरी वैल्य की ज्यादा लिमिट रखी गई है। नियामक की योजना इंडेक्स डेरिवेटिव की तरह स्टॉक डेरिवेटिव के लिए प्रॉडक्ट सक्सेस फ्रेमवर्क शुरू करने की भी है।

स्टॉक डेरिवेटिव के लिए प्रॉडक्ट सक्सेस फ्रेमवर्क से पर्याप्त टर्नओवर, ओपन इंटरेस्ट और ज्यादा ब्रोकरों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित होगी। परामर्श प्रक्रिया में सेबी को एकल शेयरों के लिए प्रॉडक्ट सक्सेस फ्रेमवर्क के खिलाफ ज्यादा टिप्पणी मिली थी और बाजार के भागीदारों ने इस प्रस्ताव को हलका बनाने का अनुरोध किया था।

अदाणी-हिंडनबर्ग फैसले की समीक्षा याचिका खारिज

भाविनी मिश्रा नई दिल्ली, 15 जुलाई

सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को अदालत के 3 जनवरी के निर्णय की समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया। इस निर्णय में अमेरिका स्थित शॉर्ट-सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा अदाणी समूह के खिलाफ लगाए गए आरोपों की भारतीय प्रतिभति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की जांच को या तो विशेष जांच दल (एसआईटी) या केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने से इनकार कर दिया गया था।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचुड, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमुर्ति मनोज मिश्रा के पीठ ने कहा, 'समीक्षा याचिका का अवलोकन करने के बाद, रिकॉर्ड में कोई त्रुटि नहीं पाई गई है। सर्वोच्च न्यायालय के नियम 2013 के ऑर्डर 47 रूल 1 अंतर्गत समीक्षा का कोई मामला नहीं है। इसलिए, समीक्षा याचिका खारिज की

जाती है।'

यह समीक्षा याचिका अनामिका जायसवाल द्वारा दायर कराई गई थी, जो मुख्य मामले में याचिकाकर्ताओं में से एक थीं।इसमें दावा किया गया कि फैसले में 'गलतियां और त्रुटियां'थीं और याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण द्वारा प्राप्त नए मैटेरियल ने फैसले की समीक्षा के लिए पर्याप्त कारण प्रदान किए।याचिका में कहा गया था कि 3 जनवरी, 2024 के आदेश में स्पष्ट त्रृटियां थीं, जिसमें इस अदालत ने वाली ऑफशोर इकाइयों के माध्यम से बाजार में हेरफेर से जड़ी धोखाधड़ी की जांच के लिए अदालत की निगरानी में एसआईटी गठित करने की याचिकाकर्ता की मांग को खारिज कर दिया था। इसलिए, इस आदेश की समीक्षा की जानी चाहिए।

न्यायालय ने जनवरी में बाजार नियामक को इस मामले में अपनी शेष दो जांच तीन महीने में परी करने का निर्देश दिया था। अदालत ने सेबी और केंद्र सरकार से यह भी जांच करने को कहा था कि क्या हिंडनबर्ग रिसर्च और किसी अन्य संस्था द्वारा शॉर्ट पोजीशन लेने की वजह से भारतीय निवेशकों को हुए नुकसान में किसी तरह का कानुनी उल्लंघन तो शामिल नहीं है।

एचडीएफसी एएमसी का मुनाफा 26 प्रतिशत बढ़ा

अदाणी समूह के प्रमोटरों के स्वामित्व

वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में एचडीएफसी ऐसेट मैनेजमेंट कंपनी (एएमसी) का शुद्ध लाभ पिछले साल के मुकाबले 26 प्रतिशत बढ़कर 603.9 करोड़ रुपये हो गया। परिचालन से कंपनी का राजस्व सालाना आधार पर 35 प्रतिशत बढ़कर 775.2 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। म्युचुअल फंड व्यवसाय की औसत तिमाही प्रबंधन

अधीन परिसंपत्तियां पहली तिमाही में बढ़कर 6.7 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गईं, जो पिछले साल की समान तिमाही में 4.9 लाख करोड़ रुपये थीं। जून में 3,210 करोड़ रुपये मूल्य के 87.6 लाख सिस्टमैटिक ट्रांजेक्शन हुए। एचडीएफसी एएमसी का शेयर सोमवार को 0.67 प्रतिशत की बढ़त के साथ 4,197 रुपये पर बंद हुआ।

इक्विटी एयुएम 30 लाख करोड़ रुपये के पार : मोतीलाल ओसवाल फाइनैंशियल की रिपोर्ट के अनुसार, इक्विटी योजनाओं की प्रबंधन अधीन परिसंपत्तियां जून में पहली बार बढ़कर 30 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गईं। एयूएम में मासिक आधार पर 8.7 प्रतिशत की वृद्धि को सूचकांकों में तेजी और नए प्रवाह में उछाल से ताकत मिली। बीएस

स्थानः गुरूग्राम

पर कॉल की जा सकती है।

दिनांकः 15 जुलाई, 2024

(विकास गुप्ता) कंपनी सचिव एवं मुख्य अनुपालन अधिकारी



'The Fact of The







To book your copy. call **022 24978470** or SMS reachbs to 56677 or email us at order@bsmail.in



NOTICE FOR LOSS OF SHARE
CERTIFICATE
, N RUKMINIYAMMA (PAN GGUPR8722L),
nolding 400 shares of Face Value Rs. 1/1United Breweries Limited having its registered
office at UB Tower, UB City, #24 Vittal Mallya
Road, Bengaluru, Karnataka, 560001 in Folio
UB019499 bearing Share Certificate Number
108652 with Distinctive Numbers from 35696311570030.

hereby give notice that the said Share ertificate(s) are lost and I have applied to the ompany for issue of duplicate Share Certificate. The public is hereby warned against purchasing or lealing in anyway with the said Share Certificates. The Company may issue duplicate Share Pertificates if no objection is received by the Company within 15 days of the publication of this company within 15 days of the publication of this dvertisement, after which no claim will be ntertained by the Company in that behalf. Place : Bengaluru Date : 16.07.2024 Folio No : UB019499

_			_
		NCE	
	W. 70	NSE	
	V ~ V		

NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LTD NOTICE

Notice is hereby given that the following Frading Member of the National Stock Exchange of India Ltd. (Exchange) has requested for the surrender of its trading membership of the Exchange:

1116	membership of the Exchange.						
Sl. No.	Name of the trading member	SEBI registration no.	Last date for filing complaints				
1.	Zerodha Commodities Private Limited	INZ000038238	July 31, 2024				

Private Limited

The constituents of the above-mentioned trading members are hereby advised to lodge immediately complaints, if any, against the above mentioned trading members on or before the last date for filing complaints as mentioned above and no such complaints filed beyond this period will be entertained by the Exchange against the above mentioned trading members and it shall be deemed that no such complaints exist against the above mentioned trading members or such complaints, if any, shall be deemed to have been waived. The complaints filed against the above mentioned trading members will be dealt with in accordance with the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange/ NCL. The complaints can be filed online at www.nseindia.com>Domestic Investors>Complaints>Register an E-complaint forms can be downloaded from www.nseindia.com>Domestic Investors>Complaints>Register a complain offline> Complaints against Trading Member or may be obtained from the Exchange office at Mumbai and also at the Regional Offices.

For National Stock Exchange of India Ltd.

Place: Chennai July 16, 2024

Vice Presider Nifty50



इण्डियन ओवरसीज़ बैंक Indian Overseas Bank आपकी प्रगति का सच्चा सा Good people to Grow w

Stressed Assets Management Department

Central Office, 763, Anna Salai, Chennai-600 002 TRANSFER OF NPA LOAN EXPOSURES TO ARCs & OTHER PERMITTED TRANSFEREES THROUGH e-AUCTION UNDER SWISS CHALLENGE METHOD

dian Overseas Bank (IOB) Invites Expression of Interest from ARCs SCBs/ NBFCs/ AIFIs/ SFBs for the proposed transfer of NPA account M/s Road Infrastructure Development Company of Rajasthan Limited (RIDCOR) Phase II under Swiss Challenge method on "as is where is and "as is what is" basis without any recourse to the Bank.

Interested prospective bidders are requested to intimate their willingness to participate in the **e-Auction scheduled on 07.08.2024** by way of an 'Expression of Interest" through email at saletoarc@iobnet.co.in on or before 22.07.2024.

For further details please visit Bank's website (www.iob.in) > click or link TENDERS → ARC-Cell → Notification dated 15.07.2024.

IOB reserves the right to cancel or modify the process and amend any terms of the notification at any stage and the same will not necessarily be carried out through advertisement but will be notified directly on the Bank's website Place: Chennai General Manage Date : 15.07.2024 SAMD, C.O.

AngelOne **Angel One Limited**

CIN: L67120MH1996PLC101709 Regd. Office & Corporate Office: 6th Floor, Ackruti Star, Central Road, MIDC, Andheri (E) Mumbai- 400 093. Tel: (022) 40003600 | Fax: (022) 40003609 Website: www.angelone.in | Email: investors@angelbroking.com

INFORMATION REGARDING THE 28th ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC)/ OTHER AUDIO-VISUAL MEANS (OAVM)

This is to inform that the 28th Annual General Meeting ("AGM") of Ange One Limited ("the Company") will be held on Friday, 09, 2024 at 10.30 a.m. (IST) through VC/OAVM in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder, read with General Circular No 21/2021 dated 14 December,2021, General Circular No. 20/2020 dated 05 May 2020 read with General Circular No. 14/2020 dated 08 April 2020 . General Circular No. 17/2020 dated 13 April 2020, General Circular no. 02/2021 dated 13 January, 2021, General Circular No 10/2022 dated 28 December,2022 and General Circular No 09/2023 dated 25 September 2023 issued by Ministry of Corporate Affairs and Circular dated 12 May, 2020, 15 January, 2021, 05 January ,2023 and 07 October, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India ('SEBI Circular') to transact the businesses that will be set forth in the notice convening AGM.

In compliance with the said MCA circulars and SEBI circular, electronic copies of the Notice of 28th AGM and Annual Report of FY2024 will be sent to all the members electronically whose email addresses are registered with the Company/Depository Participants/ Registrar & Transfer Agent and it may be noted that the Company intends to send the Annual Report of FY2024 in electronic form only.

The notice and the Annual Report will be available on the Company's website at www.angelone.in, and on the website of NSDL at www.evoting. <u>nsdl.com</u> and on the website of the Stock Exchanges on which the shares of the Company are listed i.e. <u>www.bseindia.com</u> and <u>www.nseindia.com</u>.

Manner to register/update email addresses to receive the Notice of the AGM and Annual Report electronically:

Members who have not yet registered their e-mail addresses are requested to follow the process mentioned below for registering their e-mail addresses

Members holding shares in physical mode, are requested to send the request to Company's RTA by sending an email to $\underline{rnt.helpdesk}$ @ linkintime.co.in

Members holding shares in demat form are requested to update the same with their respective Depository Participants ('DPs'). Manner of casting vote through remote e-voting or e-voting during

Members will have an opportunity to cast their votes remotely on the businesses as set forth in the Notice of the AGM through remote e-voting

Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode

for any technical issues related to login through Depository i.e. NSDL and Helpdesk details Login type

	3	
	Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.com or call at 022-4886 7000
	Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800225533

The Company shall also provide the facility of e-Voting during the Meeting. Detailed procedure for remote e-Voting before the AGM / e-Voting during the AGM will be provided in the AGM notice.

Place: Mumbai

Date: July 15,2024

For Angel One Limited

Naheed Patel **Company Secretary and Compliance Officer** ACS: 22506



Head Office: Union Bank Bhavan, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai – 400021

NOTICE

Election of Two Shareholder Directors

Pursuant to the Notice dated 14th June 2024 of the 22nd Annual General Meeting (AGM) of the Bank scheduled to be held on Friday, 26th July 2024, for the election of two directors from amongst shareholders other than the Central Government, after scrutiny of nominations and determination of their Fit and Proper status by the Nomination and Remuneration Committee, notice is hereby given that the nominations of the following shareholders have been found to be valid and in order:

Sr. No.	Name of the Shareholder (in alphabetical order)	Address	Area of expertise
1.	Shri Prakash Chandra Kandpal	C-279, Panache Valley (Kulhan Village) Off Shahstradhara Road, Dehradun – 248013 Uttarakhand	Banking, Finance and Economics
2.	Smt. Priti Jay Rao	Plot No. 8/9, Cascade Bungalow Society, Wakad Hinjewadi Road, Wakad, Pune, Maharashtra - 411 057.	Information Technology expert and has prior Banking Board experience.
3.	Shri Sanjay Kapoor	H. No. 296, Sector 15, Panchkula – 134112, Haryana.	As a Chartered Accountant
4.	Shri Suresh Chand Garg	B-136A, 10-B Scheme, Gopalpura By Pass, Jaipur – 302018.	Finance, Banking and Economics

Accordingly, the election of Two Shareholder Directors shall be held at the AGM and Remote E-voting/E-Voting at AGM will be conducted as per the schedule already announced in this regard. The profile of the aforesaid candidates is made available on Bank's website www.unionbankofindia.co.in

english/General-Meeting.aspx. Any of the aforesaid candidates desirous of withdrawing his candidature may do so at any time prior to closing hours of the Bank i.e. on or before 5.00 p.m. on Friday, 19th July 2024 by sending a letter addressed to Company Secretary, Investor Services Division, Union Bank of India, 12th Floor, Union Bank Bhavan, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai - 400021 or scanned and signed letter over e-mail a

(S. K. Dash) Place : Mumbai **Company Secretary** Date: 15.07.2024

AstraZeneca **2 AstraZeneca Pharma India Limited**

investorservices@unionbankofindia.bank

(CIN: L24231KA1979PLC003563) Regd. Office: Block N1, 12th Floor, Manyata Embassy Business Park, Rachenahalli, Outer Ring Road, Bengaluru - 560 045 Email: comp.secv@astrazeneca.com, Web: www.astrazeneca.com/india Tel: +91 80 67748000, Fax: +91 80 6774 8557

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the 45th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of AstraZeneca Pharma India Limited ("the Company") will be held on Thursday, August 8, 2024 at 3.00 p.m. (IST) through Video Conferencing ('VC')/ Other Audio Visual Means ('OAVM') in accordance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ('the Act'), Circular(s) issued by the Ministry of Corporate Affairs dated May 5, 2020 read with circulars April 8, 2020, April 13, 2020, January 13, 2021, December 14, 2021, May 5, 2022, December 28, 2022 and September 25, 2023 (the "MCA Circulars") and circular dated May 12, 2020, January 15, 2021, May 13, 2022, January 5, 2023 and October 7, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI), to transact the business as set out in the Notice dated May 27, 2024 which will be e-mailed to the members, separately.

In compliance with the Act, the Rules made thereunder and the above Circulars electronic copies of the Notice of AGM and the Annual Report 2023-24 will be sent to those members whose email addresses are registered with the Company's Registrar and Share Transfer Agents/Depository Participant(s). The Annual Report for the financial year 2023-24 including the Notice of AGM shall also be made available on the Company's website at www.astrazeneca.com/india, websites of Stock Exchanges i.e., www.nseindia.com/ www.bseindia.com and on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) at https://www.evoting.nsdl.com The members may note the following:

- a. Members will be provided with the facility to cast their votes on all resolutions set forth in the Notice of AGM using electronic Voting system (e-voting) facility provided by NSDL. The manner of voting remotely by the members holding shares in electronic mode and physical mode and for members who have not registered their email addresses will be provided in the Notice of AGM.
- The e-voting period commences on August 4, 2024 (9.00 a.m. IST) and ends on August 7, 2024 (5.00 p.m. IST). During this period, members may cast their votes electronically. The e-voting module shall be disabled by NSDL thereafter The voting rights of members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company as on August 1, 2024 ('cut-off date'). Any person, who is a member of the Company holding shares either in dematerialized form or physical form as on the cut-off date is eligible to cast votes on all the resolutions set forth in the Notice of AGM, using remote e-
- c. Those members, who will be present in the AGM through VC/OAVM facility and have not cast their vote on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through remote evoting system during the AGM.
- Members who have cast their votes by remote e-voting prior to AGM may also attend/ participate in the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their votes again.

mbers whose emai available. SMS are being sent to members by Integrated Registry Management Services Private Limited (RTA) containing the weblink for downloading the Notice. Please treat this Notice as our attempt to reach all our members who have missed or not received other communication on this subject matter and intend to participate in

Members who have not registered their email address and in consequence could not receive the Notice may get their email address registered with the $\mbox{\it RTA},$ through the link: https://www.integratedindia.in/emailupdation.aspx and following the registration process as guided thereafter. Post successful registration of the email address, the member will receive soft copy of the Notice and the procedure for remote e-voting along with the User ID and the Password to enable remote e-voting for this Notice. In case of any queries, member may write to giri@integratedindia.in. Otherwise, members are requested to send a request / communication till 48 hours prior to the closure of the voting period to the following email address of the Company or RTA, by quoting the Folio No. / Demat account No. The email address of the Company and the contact details are comp.secy@astrazeneca.com/ 080 67748000 and RTA's email address and the contact details are giri@integratedindia.in/08023460815-18.

Members are also requested to register their email address, in respect of electronic holdings with the Depositories / Depository Participant and in respect of physical holdings with the RTA.

Any person, who acquires shares of the Company and become a member of the Company after dispatch of the Notice and holding shares as on the cut-off date i.e. August 1, 2024, may obtain the login ID and password by sending a request $\ \ to$ evoting@nsdl.com or giri@integratedindia.in. However, if vou are already registered with NSDL for remote e-voting, then you can use your existing user ID and password for casting your votes.

The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Vijayakrishna K.T, Practising Company Secretary, Bangalore, C.P. No. 980, Membership No. FCS: 1788, as the Scrutinizer for conducting the e-voting process, in a fair and

Persons entitled to attend and vote at the meeting, may vote in person/authorised representative, provided that all the prescribed form/authorisation duly signed by the person entitled to attend and vote at the meeting, are mailed to the scrutinizer through e-mail on vijaykt@vjkt.in with a copy marked to evoting@nsdl.com.

In case of any queries relating to voting by electronic means, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual for members available at the Downloads sections of www.evoting.nsdl.com or contact NSDL at Toll Free No.: 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000 or send a request at evoting@nsdl.com. In case of any grievances connected with the facility for voting by electronic means, the same may be addressed to Mr. Soni Singh, Assistant Manager and Ms. Sarita Mote, Assistant Manager, NSDL, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013 at 022 - 4886 7000/022 - 2499 7000/ evoting@nsdl.com or write to the Company at comp.secy@astrazeneca.com.

The record date for the purpose of determining the entitlement of members for the final dividend for the financial year 2023-24 was Friday, July 5, 2024. The payment of dividend shall be made within stipulated timelines, subject to the approval of members at the 45th AGM. Members may note that as per the Income Tax Act, 1961, dividend income is taxable in the hands of members, and the Company is required to deduct tax at source (TDS) from dividend paid to the members at rates prescribed in the Income Tax Act, 1961. Members are requested to submit the documents in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 at $https://www.integratedregistry.in/TaxExemptionRegistration.aspx. \ Kindly \ refer \ to$ the Company's e-mail communication dated July 8, 2024 in this regard which is also uploaded at www.nseindia.com and www.bseindia.com

For AstraZeneca Pharma India Limited

Place: Bengaluru Date: July 15, 2024

transparent manner.



BAJAJ HEALTHCARE LIMITED

ice: 602-606, Bhoomi Velocity Infotech Park, Plot No. B-39, B-39A, B-39 A/1, Rd No.23, Wagle Ind. Estate Thane West, Thane- 400 604 CIN: L99999MH1993PLC072892

E-mail Id: Investors@bajajhealth.com; Contact No. 022-6617 7400/401

NOTICE

otice is hereby given that the Extra Ordinary General Meeting ("EGM") of the Members of Bajaj Healthcare Limited ("the Company' will be held on Wednesday, 7th August, 2024 at 4.00 p.m. through Video Conferencing ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the business set out in the Notice of EGM in accordance with the General Circular No 09/2023 dated 25/09/2023 and 20/2020 dated 05/05/2020 and other circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Circular No. SEBI /HO/CFD/CFD POD-2/P/CIR/ 2023/167 dated 07/10/2023 issued by Security and Exchange Board of India and other circulars issued by SEBI (hereinafte llectively referred to as "the Circulars") in this regard without the physical presence of the members at the meeting.

The Company has sent the Notice of the EGM on Monday, 15th July, 2024 through electronic mode to the members who have registered their email addresses with M/s. Link Intime India Private Limited, Registrar and Transfer agent ("RTA") of the Company/Depositor Participant(s) ("DP"). The Notice of EGM is also available on the Company's website at www.bajajhealth.com and on the website of BSE at www.bseindia.com and NSE at www.nseindia.com.

Pursuant to Section 108 of the Companies Act. 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules. 2014 and Regulation 44 of Listing Regulations, the Company is providing the e-voting facility to all its Members to cast their vote on all the resolutions set forth in the Notice of the EGM and the said Members may transact such business contained in the said Notice through voting by electronic means on e-voting platform provided by National Securities Depository Limited ("NSDL).

1) The e-voting period will commence on Saturday, 3rd August, 2024 at 9:00 a.m. IST and end on Tuesday, 6th August, 2024 at 5:00 p.m. IST. Thereafter, the e-voting module will be disabled

2) The voting rights of Members shall be in proportion to their share of paid-up capital of the Company as on the cut-off date i.e. Tuesday 30th July, 2024. Once a vote is cast by the member, he/she shall not be allowed to change it subsequently.

3) The Company is also offering the facility for e-voting during the EGM for the members attending the meeting, who have not cast their votes by remote e-voting. However, Members who have already cast their votes by remote e-voting prior to the EGM, may attend the EGM but shall not be entitled to vote.

4) A member can only opt for one mode of voting i.e. either through remote e-voting or e-voting during the EGM. If any member casts vote by more than one mode, then voting done through remote e-voting shall prevail.

5) Any person, who acquires shares of the Company and becomes a shareholder after the dispatch of the EGM notice and holding shares as on cut-off date i.e. Tuesday, 30th July, 2024 may obtain login ID & password for e-voting by sending a request at evoting@nsdl.co.in In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 or send a request

to Ms. Pallavi Mhatre, Manager, NSDL, 4th Floor, 'A Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel For Bajaj Healthcare Limited

Date: 15/07/2024 Place: Thane

//umbai 400013 at evoting@nsdl.co.in.

The details of remote e-voting are given below:

Chairman & Managing Director



HDFC Life Insurance Company Limited CIN: L65110MH2000PLC128245

Registered Office: 13th Floor, Lodha Excelus, Apollo Mills Compound, N.M. Joshi Marg, Mahalaxmi, Mumbai 400 011 (IRDAI Reg. No. 101 dated 12.10.2000) Ph: 022-67516666, Fax: 022-67516861, Email: investor.service@hdfclife.com, Website: www.hdfclife.com

Consolidated Financial Results (₹in Lakh) Three months ended / As at Year ended / As at March 31, 2024 June 30, 2023 **Particulars** June 30, 2024 March 31, 2024 (Audited) (Audited) 20,94,094 11,67,279 63,08,156 Premium Income (Gross)1 Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and 44,996 41,808 1,56,967 or Extraordinary items) Net Profit for the period before Tax (after Exceptiona 49,917 44,996 41.808 1.56.967 Net Profit for the period after Tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items) 47,897 41,164 41,671 1,57,408 Total Comprehensive Income for the period [Comprising profit for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]² NA NA NA NA Equity Share Capital (Paid up) 2,15,098 2,15,094 2,14,968 2,15,094 Reserves (excluding Revaluation Reserve) 12.54.584 12.06.490 11,24,755 12,06,490 Earnings per share (Face value of ₹10 each) 2.23 1.91 1.94 7.32 a) Basic (not annualised for three months) (in ₹) b) Diluted (not annualised for three months) (in ₹) 2.23 1.91 1.94 7.31

	Standalone Financial Results					
	Key	Xey numbers of Standalone Results of the Company are as under: (₹in Lakh)				
			Three months ended / As at			Year ended / As at
	Sr. No.	Particulars	June 30, 2024	March 31, 2024	June 30, 2023	March 31, 2024
			(Reviewed)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
	1.	Premium Income (Gross) ¹	12,81,088	20,93,756	11,67,279	63,07,648
	2.	Profit before tax	49,749	44,971	41,660	1,56,384
	3.	Profit after tax	47,765	41,166	41,534	1,56,886
	4.	Total Comprehensive Income ²	NA	NA	NA	NA
'Additional information ³ : Profit after Tax = (a)+(b)+(c)						
	(a)	Existing business surplus	1,41,611	1,63,288	1,20,007	5,22,075
	(b)	New business strain	-1,15,397	-1,40,486	-98,629	-4,54,675
	(c)	Shareholders' surplus	21,551	18,364	20,156	89,486

Additional details based on Standalone Results of the Company as per Regulation 52(4) of SEBI LODR are as under:


		Three months ended / As at			Year ended / As at
Sr. No.	Particulars	June 30, 2024	March 31, 2024	June 30, 2023	March 31, 2024
		(Reviewed)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
1.	Solvency Margin	186%	187%	200%	187%
2.	Debt Equity Ratio (no of times)	0.06	0.06	0.07	0.06
3.	Debt service coverage ratio (no of times) (not annualised for three months)	12.58	8.12	12.09	28.43
4.	Interest service coverage ratio (no of times) (not annualised for three months)	12.58	8.12	12.09	28.43
5.	Total Borrowings (₹ in Lakh)	95,000	95,000	95,000	95,000
6.	Outstanding redeemable preference shares (quantity and value)	NA	NA	NA	NA
7.	Capital redemption / debenture redemption reserve	NA	NA	NA	NA
8.	Net Worth (₹ in Lakh)⁴	15,33,374	14,65,174	13,60,433	14,65,174
9.	Net profit/ loss after tax (₹ in Lakh)	47,765	41,166	41,534	1,56,886
10.	Earnings per share				
	a) Basic EPS before and after extraordinary items (net of tax expense) for the period (not annualised for three months)	2.22	1.91	1.93	7.30
	b) Diluted EPS before and after extraordinary items (net of tax expense) for the period (not annualised for three months)	2.22	1.91	1.93	7.29
11.	Current ratio	0.83	0.91	0.83	0.91
12.	Long term debt to working capital	NA	NA	NA	NA
13.	Bad debts to Account receivable ratio	NA	NA	NA	NA
14.	Current liability ratio	0.03	0.03	0.03	0.03
15.	Total debts to total assets	0.003	0.003	0.004	0.003
16.	Debtors turnover	NA	NA	NA	NA
17.	Inventory turnover	NA	NA	NA	NA
18.	Operating margin (%)	NA	NA	NA	NA
19.	Net profit margin (%)	NA	NA	NA	NA

- 2. The new Indian Accounting Standards (Ind AS) are currently not applicable to insurance companies in India.
- 3. For better understanding of the financial performance, the Company has provided the break-up of profit after tax; Underwriting profit comprises of: a) Existing business surplus representing profits emerging during current period from business written in prior years and b) New business strain - Insurance contracts being long term in nature revenue is recognised over the period of the contract as against costs being recognised in the period in which they are incurred, leading to New business strain.
- c) Shareholders income represents investment and other income arising on shareholders' funds, net of expenses.
- 4. Net worth represents shareholder's funds excluding redeemable preference shares, if any

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 and 52(4) read with regulation 63(2) of the SEBI (Listing Obligation and other Disclosure Requirements) Regulations 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange websites (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and the Company's website (www.hdfclife.com).

For and on behalf of the Board of Directors

Vibha Padalka Managing Director & CEO (DIN: 01682810)



Mumbai

























